# Sebi to reward informants for providing tips on defaulters

PRESS TRUST OF INDIA New Delhi, March 9

WITH AN AIM to recover fines from elusive offenders, capital markets regulator Sebi on Thursday introduced a reward system for up to ₹20 lakh to informants for sharing information about the assets of defaulters.

The reward may be granted in two stages — interim and final.While the interim reward amount will not exceed two and a half per-cent of the reserve price of the asset regarding which tips was provided or ₹5 lakh, whichever is less and the final reward amount will not exceed 10% of the dues recovered or ₹20 lakh, whichever is less.



Coming out with guidelines on grant of reward to an informant who provides credible information about the assets of the defaulter under recovery proceedings, Sebi said, "information and the identity provided by the informant or the reward paid to him shall be held in confidence." As per Sebi, a person will be considered to be an informant eligible for reward if he or she furnishes original information in relation to the asset of a defaulter concerning the dues which are certified as 'Difficult to Recover'.

are the ones which could not be recovered even after exhausting all the modes of recovery. Also, the regulator issued a

The difficult-to-recover dues

list of 515 defaulters, where information can be provided by any informant.

In addition, for the purpose of recommending the eligibility of reward, Sebi will set-up an informant reward committee comprising the chief general manager of Recovery and Refund Department, the concerned recovery officer having another recovery officer nominated by the chief general manager and an officer in the grade of deputy general manager or higher, of the Office of Investor Assistance and Education nominated by the chief general man-

jurisdiction in the matter,

mittee will give its recommendations to the competent authority on the matters pertaining to eligibility of informants for reward and determination of the amount of reward

Sebi said that the amount of reward granted to the informant will be paid from the Investor Protection and Educa-

## Deadline extended for comments on REIT, InvIT sponsors

**FE BUREAU** 

Mumbai, March 9

not need to hedge their risk,

but there will be opportunities

for non-resident citizens who

edly facilitated eight coun-

tries to hold cross-border

trade transactions in the

that while internationalisation

and a freer capital account

come with their own set of

benefits, it is not without risks

and that freer capital flows

come with their own set of

challenges, the primary one

being that of volatility and we

need to gear up to manage

that," the deputy governor said

in a speech on March 5 at the

17th FEDAI Annual Confer-

DG Rao said with the

"It is now widely accepted

Indian rupee.

ence at Cairo.

India has till now report-

may need to hedge, he said.

**CAPITAL MARKETS REGULA-TOR** Sebi on Thursday extended the timeline till March 15, for submission of public comments on a proposal pertaining to higher responsibility for sponsors of investment vehicles — REITs and InvITs.

The regulator had put in place a consultation paper on holding of sponsors in Real Estate Investment Trust (REITs) and Infrastructure Investment Trust (InvITs) on February 23 and sought public comments on the same by March 8.

public notice.



Good amount of interest in rupee

RBI deputy governor M Rajeshwar Rao

increasing integration of the economy with the rest of the world, more and more entities are likely to get directly or indirectly exposed to foreign exchange risks. There could be demands for permitting hedging of economic exposures. While this may be "tricky" given the current extent of capital account convertibility, the possibility of such hedging being permitted over a period of time, as we progress further down the path of capital account convertibility, needs to be carefully evaluated, the

Rao said the last few years

have witnessed proliferation of foreign exchange trading platforms in the country. However, some of these platforms have also been used to lure gullible people to undertake forex trading with promises of disproportionate, exorbitant returns. There have also been reports of frauds committed by such unauthorised portals with reports of many residents losing money through such trading and schemes, Rao said, adding that the RBI has been taking efforts to sensitise general public about the same.

Further, Rao said, going ahead, there could emerge greater challenges as markets become more developed and interconnected, and as the range of products expands.

"New frontiers will also emerge as Indian banks expand their presence in offshore markets, non-resident participation in domestic markets grows, and as technological changes continue to transform the manner in which markets function. Foreign exchange market participants will have to prepare themselves to manage the changes and the associated risks...," he added.

# (This is only an advertisement for information purposes and not a prospectus announcement) ITCONS E-SOLUTIONS LIMITED

was originally incorporated as Private Limited Company in the name of "ITCONS E-Solutions Private Limited" on May 15, 2007 under the provisions of the Companies Act, 1956 bearing Corporate Identification Number U72900DL2007PTC163427 issued by Registrar of Companies - Delhi. Subsequently, our company was converted into Public Limited Company under the Companies Act, 2013 and the name of our Company was changed to "ITCONS E-Solutions Limited" vide a fresh Certificate of Incorporation consequent upon conversion from Private Company to Public Company dated November 11, 2022 bearing Corporate Identification Number U72900DL2007PLC163427 issued by Registrar of Companies – Delhi. Fo further details of change in name and registered office of our company, please refer to section titled "Our History and Certain Corporate Matters" beginning on page no 112 of the Prospectus

Registered Office: Regus Elegance 2F, Elegance Jasola District Centre, Old Mathura Road, New Delhi, South Delhi – 110025, India Corporate Office: 3rd Floor, B-10, Bajaj Bhawan, Sector-3, Jamna Lal Bajaj Marg, Noida – 201301, Uttar Pradesh, India Contact Person: Ms. Pooja Gupta, Company Secretary & Compliance Officer; Tel No: +91 120 4149563, E-Mail ID: cs.pooja@itconsinc.com Website: www.itconsinc.com; CIN: U72900DL2007PLC163427 OUR PROMOTERS: (I) MR. GAURAV MITTAL AND (II) MRS. SWATI JAIN

### BASIS OF ALLOTMENT

further details please see "The Issue" beginning on page no. 38 of the Prospectus.)

ISSUE PROGRAMME: ISSUE OPENED ON: FEBRUARY 28, 2023 and CLOSED ON: MARCH 02, 2023

PROPOSED DATE OF LISTING: MARCH 13, 2023\*.

The Equity Shares offered through Prospectus are proposed to be listed on the SME Platform of BSE Limited ("BSE"). Our Company has received in-principal approval letter dated January 24, 2023 from BSE for using its name in the offer document for listing of our shares on the SME Platform of BSE. For the purpose of this Issue, the Designated Stock Exchange will be the BSE Limited ("BSE"). The trading is proposed to be commenced on or about

\* Subject to receipt of listing and trading approvals from the BSE Limited

SUBSCRIPTION DETAILS The Issue was subscribed to an extent of 18.81 times i.e., Gross Subscription of Rs. 1,63,09,80,000/- for 3,19,80,000 equity shares were based on the bid file received from BSE Limited on the day after closure of the Issue received as

Number of applications received

(Category wise)

against Rs. 8,67,00,000/- for 17,00,000 equity shares (including subscription by Market Makers to the Issue). The Issue was subscribed to an extent of 15.69 times (after technical rejection and bids not banked). i.e., Net Subscription of Rs. 1.36,02,72,000/- for 2.66,72,000 equity shares after eliminating technically rejected and bid not banked applications. **Summary of the Valid Applications Received:** 

Sr.	Category	Gross App	lication	Less: Re	ections	Val	id	Allotmo	ènt
No		No. of Application	<b>Equity Share</b>						
1	Retail Individual Applicants	7,037	14,074,000	96	192,000	6,941	13,882,000	422	844,000
2	Non-Retail Applicants	689	12,948,000	5	244,000	684	12,704,000	247	770,000
3	Market Maker	1	86,000	-	-	1	86,000	1	86,000
0	Total	7,727	27,108,000	101	436,000	7,626	26,672,000	670	1,700,000
Allocation: The Basis of Allotment was finalized in consultation with the Designated Stock Exchange – BSE Limited, on March 06, 2023.									

A. Allocation to Market Maker (After Technical & Multiple Rejections and Withdrawal): The Basis of Allotment to the Market Maker, at the issue price of ₹51/- per Equity Share, was finalised in consultation with BSE Limited The category was subscribed by 1.00 time. The total number of shares allotted in this category are 86,000 Equity shares.

Sr.	No. of Shares applied for	Number of applications	% to total	Total No. of Shares applied in each	% to total	Ratio of	allottees to	Number of successful applicants (after rounding)	Total No. of shares allocated/alloted		
No	(Category wise)	received		category			icants				
8 18	86000	1	100.00	86000	100.00	FIRM		1	86000		
	GRAND TOTAL	1	100.00	86000	100.00			I	86000		
B. Allocation to Retail Individual Investors (After Technical & Multiple Rejections and Withdrawal): The Basis of Allotment to the Retail Individual Investors, at the issue price of ₹51/- per Equity Share, was finalized in											
consul	consultation with BSE Limited. The category was subscribed by 16.45 times i.e. for 1.38,82,000 Equity Shares. Total number of shares allotted in this category is 8,44,000 Equity Shares to 422 successful applicants.										

Sr.	No. of Shares applied for	Number of applications   % to total		cations % to total Total No. of Shares applied in each % to total Ratio of allottees to		illottees to	Number of successful applicants(after rounding)	Total No. of shares allocated/alloted	
No	(Category wise)	received		category	applicants		icants		
	2000	6941	100.00	13882000	100.00	422	6941	422	844000
	GRAND TOTAL	6941	100.00	13882000	100.00			422	844000

C. Allocation to Other than Retail Individual Investors (After Technical Rejections & Withdrawal): The Basis of Allotment to Other than Retail Individual Investors, at the issue price of ₹51/- per Equity Share, was finalized in consultation with BSE Limited. The category was subscribed by 16.50 times i.e. for 1,27,04,000 shares. Total number of shares allotted in this category is 7,70,000 Equity Shares to 247 successful applicants. The category wise details of the Basis of Allotment are as under:

_	6000	50	8.48	348000	1 274		50		22000
2		58			2.74	11	58	11	
3	8000	57	8.33	456000	3.59	14	57	14	28000
2 2									16000
4	10000	25	3.65	250000	1.97	8	25	8	
5	12000	27	3.95	324000	2.55	10	27	10	20000
6	14000			322000	2.53	10		10	20000
5		23	3.36				23		
7	16000	21	3.07	336000	2.64	10	21	10	20000
		17	2.49			9	17	9	
3	18000	17		306000	2.41	100			18000
	20000	39	5.70	780000	6.14	24	39	24	48000
0							9		
0	22000	8	1.17	176000	1.39	5	8	5	10000
	24000	9	1.32	216000	1.70	7	9	7	14000
- 1								2	
2	26000	9	1.32	234000	1.84	/	9	7	14000
3	28000	5	0.73	140000	1.10	4	5	4	8000
						1		· ·	
4	30000	10	1.46	300000	2.36	9	10	9	18000
5	32000	3	0.44	96000	0.76	FIRM		3	6000
								3	
5	34000	2	0.29	68000	0.54	FIRM	0.00	2	4000
7	36000	5	0.73	180000	1.42	FIRM	-	5	10000
							33		
8	38000	5	0.73	190000	1.50	FIRM		5	10000
-			-		_		5		2000
- 1				9//		1 A	3	1	
)	40000	10	1.46	400000	3.15	FIRM		10	20000
-			-		-	1 2	10	2	4000
			(E)			2	10		
)	42000	4	0.58	168000	1.32	FIRM	0.00	4	8000
-					1		4	1	2000
- 348			30 31			1	4	1	
	46000	4	0.58	184000	1.45	FIRM		4	8000
_			1.00		11.0	2	1		4000
							4	2	
2	48000	2	0.29	96000	0.76	FIRM	6	2	4000
_		_	1127		1	1	7		
		2	9			1	2	<u> </u>	2000
3	50000	3	0.44	150000	1.18	3	3	3	6000
- 1	20000		3 VIII 5	120000	1.10	1	75	1 1	
-1			-1 -3				3	1	2000
4	52000	2	0.29	104000	0.82	FIRM		2	4000
-	52000		0.27	101000	0.02	THUI			
_		,				(c. 1	2	1	2000
5	54000		0.15	54000	0.43	FIRM	-	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	4000
_		1				THOM	5	1	
6	56000	3	0.44	168000	1.32	FIRM	0.00	3	6000
_			+ +		_	7	3	2	4000
_				11.600		2	3		
7	58000	2	0.29	116000	0.91	FIRM		2	4000
$\rightarrow$					+		2	1	2000
						1	2	1	
3	60000	4	0.58	240000	1.89	FIRM	13	4	8000
$\rightarrow$			+			3	4	3	6000
- 33			4				4	3	
9	62000	1	0.15	62000	0.49	FIRM		l I	4000
0	64000	1	0.15	64000	0.50	FIRM		1	4000
		1						1	
	66000		0.15	66000	0.52	FIRM	7		4000
_		<u> </u>					-	<u> </u>	
2	78000	1	0.15	78000	0.61	FIRM	8	į .	4000
3	80000	2	0.29	160000	1.26	FIRM		2	8000
	22300		5.27	100000	1.20	1	2	<u> </u>	2000
			(I) (I)			1	2	<u> </u>	2000
1	86000	1	0.15	86000	0.68	FIRM		1	6000
		2						2	
5	90000	2	0.29	180000	1.42	FIRM		2	8000
	5	0	1 2	- 5		8	2	3	2000
	10000	2	0.44	200000	2.26	EDA		2	10000
6	100000	3	0.44	300000	2.36	FIRM	E .	3	18000
	108000	2	0.29	216000	1.70	FIRM		2.	12000
	110000								
8	110000	3	0.44	330000	2.60	FIRM		3	18000
						1 1	3		2000
_	120000		0.15	120000	0.04	PIDA	3	1	2000
9	120000	1	0.15	120000	0.94	FIRM	5	5	8000
0	122000	1	0.15	122000	0.96	FIRM		1	8000
		1		140000		FINIVI	9		
	140000	1	0.15	140000	1.10	FIRM		Q	8000
2	150000	2	0.29	300000	2.36	FIRM		2	16000
_	130000		0.29	30000	2.30	I IIXIVI		<u> </u>	
							2		2000
3	160000	2	0.29	320000	2.52	FIRM		7	20000
		2			2.32		0 0	2	
	164000	1	0.15	164000	1.29	FIRM	8	y I	10000
5	170000	1	0.15	170000	1.34	FIRM	-	1	10000
	1/0000	1	0.13		1.34			1	
6	192000	1	0.15	192000	1.51	FIRM		1	12000
	194000	2	0.29			FIRM		2	24000
7		<u> </u>		388000	3.05	LIKIVI		2	24000
	202000	1	0.15	202000	1.59	FIRM	5	3	12000
		1		240000	1 20	FIRM		1	14000
8	240000	1	0.15		1.89	FIKIVI	Si D	( I	
8	240000		0.1	20000	2.36	FIRM	2	0	18000
8		1	0.15	30000	Z10				
8 9 0	300000	1	0.15	300000	7.30	FIRM		1	
7 8 9 0		1 1 684	0.15 0.15 100.00	930000 930000 12704000	7.32 100.00	FIRM		1 247	56000 770000

06, 2023 has authorized the corporate action for the transfer and allotment of the Equity Shares to various successful applicants.

In terms of the Prospectus dated February 17, 2023 and as per the SEBI (ICDR) Regulations, 2018 wherein a minimum of 50% of the net offer of shares to the Public shall initially be made available for allotment to retail individual investors. The balance net offer of shares to the public shall be made available for allotment to a) individual applicants other than retail investors, including Corporate Bodies / Institutions irrespective of number of shares applied for. The unsubscribed portion of the net offer to any one of the categories specified in (a) or (b) shall be made available for allocation in the other category, if so required. "For the purpose of sub-regulation (2) of regulations 253, if the retail individual investor category is entitled to more than fifty per cent on proportionate basis, the retail individual investors shall be allocated that higher percentage".

The instructions to Self Certified Syndicate Banks for unblocking the amount has been processed on or prior to March 09, 2023. Further, the CAN-cum-Refund advices and allotment advice and/or notices will be forwarded to the address/email id of the Applicants as registered with the depositories as filled in the application form on or before March 10, 2023. In case the same is not received within 10 days, investors may contact at the address given below. The Equity Shares allocated to successful applicants are being credited to their beneficiary accounts subject to validation of the account details with the depositories concerned. The Company is taking steps to get the Equity Shares admitted for trading on the BSE SME Platform within six working days from the date of the closure of the Issue.

Note: All capitalized terms used and not defined herein shall have the respective meanings assigned to them in the Prospectus dated February 17, 2023 ("Prospectus") Investors are requested to note that the details of the allotment made would also be hosted on the website of the Registrar to the Issuer, http://cambridge.cameoindia.com/Module/IPO Status.aspx. All future correspondence

in this regard may kindly be addressed to the Registrar to the Issue quoting full name of the First/ Sole applicants, serial number of the Application Form, number of shares applied for and Bank Branch where the application had been lodged and payment details at the address of the Registrar given below:



CAMEO CORPORATE SERVICES LIMITED

"Subramanian Building", #1, Club House Road, Chennai - 600 002, India Telephone: +91-44-40020700, 28460390 Email: investor@cameoindia.com Website: www.cameoindia.com

Contact Person: Ms. K. Sreepriya SEBI Registration Number: INR000003753 CIN: U67120TN1998PLC041613

For ITCONS E-SOLUTIONS LIMITED

Place: New Delhi, India Date: March 09, 2023

Gaurav Mittal Managing Director DIN: 01205129

THE LEVEL OF SUBSCRIPTION SHOULD NOT BE TAKEN TO BE INDICATIVE OF EITHER THE MARKET PRICE OF THE EQUITY SHARES ON LISTING OR THE BUSINESS PROSPECTS OF

## FROM THE FRONT PAGE

## \$500-mn **ADIA** deal

Lenskart, which uses technology and supply chain automation to directly sell glasses and contact lenses to consumers, was co-founded in 2010 by Peyush Bansal, who is also its chief executive officer. The company agreed in June to buy a majority stake in Japan's Owndays at a valuation of about \$400 million. The company is profitable

and is planning an initial public offering within 48 Bansal told months, Bloomberg Television in July. **—BLOOMBERG** 

# test

The Personal Data Protection Bill, likely to be tabled in Parliament soon, has a clause which mandates that firms dealing with consumer data can use it for purposes other than it was collected for, only after seeking the consent of users.

According to DeepStrat, a New Delhi-based think tank, storing a user's personal information in any database and then disclosing it through a caller ID has privacy implications.

"If a database needs to be created, it needs to be one of telemarketing numbers rather than of all users, which is a much more appropriate solution given that the risk of compromising the privacy of an average user is at stake," said Gauri Kumar, consultant at DeepStrat. "Until a privacy law is in place, this goal is not possible without the caller's personal information being at risk," Kumar added.

"CNAP should be implemented only after the Data Protection Law comes into effect so that the rights of users can be protected and there can be an assessment of its impact on individual privacy," said Amrita Choudhury, director at CCAOI, a policy advocacy organisation.

"CNAP should be introduced as an alternative and voluntary 'opt-in' service and not made mandatory for users as proposed," Choudhury added.

Apart from the concerns related to privacy, telecom operators also urged Trai to implement the feature in a phased manner and recommended that the government to subsidise the operators for its rollout.

The feature should first be implemented for telemarketers or commercial entities and then for individuals if required, some stakeholders said. **Consumer Unity and Trust** 

Society (CUTS) argued that Trai should also analyse the existing caller identification solutions based on crowdsourced data, ie apps like Truecaller. "We feel that there is a lack

of data on evidence with respect to whether the crowdsourced data is reliable or not.

"And therefore, there is a need for in-depth study to understand existing solutions before taking a call on introducing a new solution (CNAP)," said Amol Kulkarni, director of research at CUTS International.

Based on the discussions on Thursday, Trai has asked the stakeholders to submit their final comments on the subject by March 17.

## **SHIVA CEMENT LIMITED**

CIN: L26942OR1985PLC001557 Regd Office: Shiva Cement Limited, Telighana, PO: Birangatoli, Tehsil-Kutra, District-Sundargarh Odisha- 770018

### NOTICE OF POSTAL BALLOT AND E-VOTING INFORMATION Notice is hereby given to Members of Shiva Cement Limited (the "Company"), pursuant to Sections 108 and 110 of the

Companies Act, 2013 ("the Act") read with Rules 20 and 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended ("Management Rules") read with Circular No. 14/2020 dated April 8, 2020, Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020, Circular No. 22/2020 dated June 15, 2020, Circular No. 33/2020 dated September 28, 2020, Circular No. 39/2020 dated December 31, 2020, Circular No. 10/2021 dated June 23, 2021, 20/2021 dated December 8, 2021, Circular No. 3/2022 dated May 5, 2022 and 11/2022 dated December 28, 2022 issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") (hereinafted collectively referred to as "MCA Circulars"), SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations") and other applicable provisions of the Act, rules, circulars and notifications issued thereunder (including any statutory modifications or re-enactment thereof for the time being in force and as amended from time to time), that the following agenda items are proposed for consideration by the Members of the Company for approval by means of Postal Ballot

Approval to enter into Material Related Party Transactions with JSW Ispat Special Products Limited for Financia Year 2023-2024 Approval to enter into Material Related Party Transactions with JSW International Tradecorp Pte Limited for Approval to enter into Material Related Party Transactions with JSW Minerals Trading Private Limited for

Approval to enter into Material Related Party Transactions with JSW Steel Limited for Financial Year 2023-2024 Approval to enter into Material Related Party Transactions with JSW Paints Private Limited for Financial Year Approval to enter into Material Related Party Transactions with Bhushan Power & Steel Limited for Financial

Year 2023-2024

Sunday, 9th April, 2023 at 5:00 pm (IST) Conclusion of remote e-voting The detailed procedure and instructions for remote e-voting are enumerated in the Postal Ballot Notice. The e-voting facility wil be disabled for voting by KFin Technologies Limited (Kfin) upon expiry of the aforesaid voting period.

In compliance with the aforesaid MCA Circulars, the Company has completed the sending postal ballot notice on Thursday, March 9, 2023 by email to those Members of the Company whose names appeared on the Register of Members / List of bseindia.com and on website of KFin at www.evoting.kfintech.com.

and the Companies (Management & Administration Rules, 2014, as amended, Members have been provided with the facility to cast their vote electronically through e-voting services provided by NSDL on the resolutions set forth in the Notice. The communication of the assent and or dissent of the members would take place only through the remote e-voting system.

Those shareholders whose e-mail IDs are not registered can register their e-mail ID with Company and RTA the shareholders can do the same by sending an email to the Company on cs@shivacement.com and Kfin Techologies Limited on einward. ris@kfintech.com by providing their name registered as per the record of the Company, address, E-mail ID, PAN, DP ID/Client ID or Folio Number and Number of shares held by them.

who is not a Member as on 3rd March 2023 should treat this notice as for information purpose only. The Company has appointed Mr. Sunil Agarwal (Membership No. 8706 and Certificate of Practice No.3286), Practicing

Company Secretary, Proprietor of M/s. Sunil Agarwal & Co., as Scrutinizer for conducting the Postal Ballot/E-voting in a fair The Scrutiniser shall after conclusion of the voting period, prepare report of the votes cast in favour or against, if any, and

In case of any query on e-voting related matters, Members may refer to the "Help" and "FAQs" sections/e-voting user manual available through a dropdown menu in the "Downloads" section of KFintech website for e-voting: https://evoting.kfintech.com or contact Mr. Mohammed Shanoor, Corporate Registry at KFintech, (Unit: Shiva Cement Limited), Selenium Tower B. Plot 31-32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Serilingampally, Hyderabad - 500 032 at einward.ris@kfintech.com; or

> By order of the Board of Directors **Shiva Cement Limited** Sneha Bindra

Company Secretary

financialexp.epapr.in

THE DISCLAIMER CLAUSE PERTAINING TO BSE.

THE CONTENTS OF THE PROSPECTUS OR THE PRICE AT WHICH THE EQUITY SHARES ARE OFFERED HAS BEEN CLEARED, SOLICITED OR APPROVED BY BSE, NOR DOES IT CERTIFY THE

CORRECTNESS, ACCURACY OR COMPLETENESS OF ANY OF THE CONTENTS OF THE PROSPECTUS. THE INVESTORS ARE ADVISED TO REFER TO THE PROSPECTUS FOR THE FULL TEXT OF

ITCONS E-SOLUTIONS LIMITED

ager in charge of Investor Protection and Education Fund (IPEF). The informant reward com-

payable to informants.

tion Fund.

"It has been decided to

extend the timeline for submission of comments to March 15, 2023," Sebi said in a

Total No. of shares allocated/alloted

2000

(after rounding)

Lenskart nears

Trai's caller ID

# faces privacy

Website: www.shivacement.com Email - cs@shivacement.com phone:+91 8926964242

by voting through electronic means ("remote e-voting"): Description of the Special Business Approval to enter into Material Related Party Transactions with JSW Cement Limited for Financial Year Approval to enter into Material Related Party Transactions with Utkarsh Transport Private Limited for Financia

Remote e-voting details are given below: Saturday, 11th March, 2023 at 9:00 am (IST) Commencement of remote e-voting

Beneficial Owners as maintained by the Company/Registrar & Transfer Agent/ Depositories, respectively, as at close of business hours on Friday, March 3, 2023 (the "Cut-off date") and whose e-mail addresses are registered with the Company or Registrar& Transfer Agent or Depositories. The Postal Ballot Notice, together with explanatory statement and e-voting instructions is available on the Company's website at www.shivacement.com, website of Stock Exchange i.e BSE at www. In Compliance with the provisions of Section 108,110 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013

The voting rights of members shall be in proportion of the shares held by them in the paid up equity share capital of the Company as on 3rd March 2023 as per the Register of Members/Beneficiary position maintained by the Depositories. A person

submit the same to the Chairman or the Company Secretary. Results of voting shall be declared by placing the same along with the Scrutiniser's report on the Company's website viz www.shivacement.com as well as on the website of KFin www.evoting. kfintech.com and will also be communicated to the stock exchange on or before 11th April, 2023.

New Delhi

call KFintech toll free number 1800-309-4001.

Place: Sundargarh Date: 9th March, 2023



उधारकर्ता(ओं) / गारंटर(रों) के नाम

सहित 22-10-2021 से भावी ब्याज के साथ।

के अनुसार)

### इक्विटस स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड (पूर्व में इक्विटस फाइनेंस लिमिटेड के रूप में अभिज्ञात)

पंजीकृत कार्यालयः नंबर ७६९, स्पेंसर प्लाजा, चतुर्थ तल, फेज—।।, अन्ना सलाई, चेन्नई, तमिलनाडु—६०० ००२, दुरभाषः रु 044-42995000, 044-42995050

अचल सम्पत्ति के लिए बिक्री सूचना प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8(6) के साथ पठित सरफॉएसि अधिनियम 2002 के अंतर्गत अचल परिसंपत्तियों के विक्रयार्थ

एतदद्वारा जनसाधारण तथा विशेष रूप में उधारकर्ताओं, सह-उधारकर्ताओं और गारंटरों को सचित किया जाता है कि प्रतिभृत ऋणदाता के पास बंधककृत निम्न विवरणित अचल संपत्ति, जिसका भौतिक अधिग्रहण इक्विटस स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा कर लिया गया है, का 28-03-2023 को ''जैसी है जहां है'' तथा ''जैसी है जो है दशा'' पर विक्रय किया जायेगा। यह विक्रय निम्नलिखित उधारकर्ताओं

N	
	अकृषकीय संपत्ति के समस्त वह भाग तथा अंश जो आवासीय संपत्ति के रूप में माप 228
1. श्री देवेंद्र पुत्र मोलाड राम,	वर्ग गज, मकान सं. 6/5, मोहल्ला काला पत्थर, हंसी, तहसील हंसी, जनपद हिसार में
मिकान नंबर ८/५ कामा प्रशेर दिंद दार्द स्कल के	
नवर्गन नवर ७७ ७, वर्गना नवर, छिषु छोइ रवरूरा वर	स्थित तथा इस प्रकार परिसीमित है, पूर्व— 27 फुट 5 इंच सार्वजनिक गली, पश्चिम— 23
समीप, हंसी, हिसार, हरियाणा—125033	
	फुट 5 इंच संपत्ति मनोहर लाल की, उत्तर— 82 फुट 3 इंच संपत्ति हरकिशन और संजय
2. श्रीमती विनोद देवी पत्नी देवेंद्र	की, दक्षिण— 81 फुट 3 इंच संपत्ति नानक चंद की जो विक्रय विलेख सं. 1676 दिनांकित
	िका, दावाग— 81 फुट उ इय संपाता नानक यद का जा विक्रय विलख से. १६७६ दिनाकित
मकान नंबर 6 / 5, अखरी मोप, लाल सड़क, काला	23.06.2014 के अनुसार श्रीमती विनोद देवी पत्नी श्री देवेंद्र गोर के पक्ष में, हंसी जनपद
पत्थर, हंसी, हरियाणा—125033	हिसार हरियाणा की एमसी सीमाओं के अंदर और इस प्रकार परिसीमित हैं: उत्तर– सुनील
ऋण खाता संख्याः SEIBHSR0280440	पुत्र हरिकशन का मकान 82'—3'', दक्षिण— गुलशन पुत्र नानक चंद 81'—3'', पूर्व— गली
ACT GIVII TIGAI: SEIDUSKU200440	पुत्र हराकरान का नकान 82 – 3 , पांबण— गुलरान पुत्र नानक चंद 81 – 3 , पूर्व— गला

देय दावा राशि रु. 4528979 ∕ −, 21−10−2021 के 27′−5′′, पश्चिम− अन्य भूखंड 23′−5′′, माप− 228 वर्ग गज, जो हंसी के उप−पंजीकरण अनुसार, मासिक शेष, शुल्कों और लागतों इत्यादि जनपद तथा हिसार के पंजीकरण जनपद के अंदर स्थित हैं, जो वर्तमान में तथा भविष्य में भिम से संबद्ध अथवा भिम से संबद्ध किसी चीज से स्थायी रूप में जड़े समस्त भवनों एवं संरचनाओं और उससे अनुलग्नित समस्त सुख-सुविधागत / मामूल अधिकारों के साथ (कूल बकाया रु. 49,57,626.00 / - 04-03-2023 है। आरक्षित मृल्यः रु. 40,63,000 / – (रुपये चालीस लाख तिरेसट हजार मात्र) ईएमडीः रु. ४,06,300 / – (रुपये चार लाख छह हजार तीन सौ मात्र)।

प्रतिभूत परिसंपत्ति (अचल संपत्ति) का विवरण

नीलामी की तिथिः 28-03-2023 ई-नीलामी विक्रय के विस्तत नियमों और शर्तों के लिए कृपया www.equitasbank.com और

द्वारा इक्विटस स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड को देय-भूग्तेय निम्नांकित राशि की वस्ली के लिये किया जायेगा।

https://sarfaesi.auctiontiger.net में दिए गए लिंक को देखें।

दिनांक : 10-03-2023 प्राधिकत अधिकारी स्थान : हिसार इक्विटस स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड

Registered Office: 301-306, 3rd Floor, ABHIJEET -V. Fincare Opp. Mayor's Bungalow, Law Garden Road, Mithakhali, Small Finance Bank Ahmedabad - 380006, Gujarat. www.fincarebank.com

LOAN AGAINST GOLD - AUCTION NOTICE ON "AS IS WHERE IS" BASIS The below mentioned borrower/s have been issued notices to pay their outstanding amounts towards the loan against gold facilities availed from Fincare Small Finance Bank Ltd ( "Bank"). Since the borrower/s has/have failed to repay his/their dues, we are constrained to conduct an auction of pledged gold items/articles on 16 March 2023 at below mentioned branches.

NEW DELHI - DWARKA - 22660000442789, 22660000465165 | NEW DELHI - MALVIYA NAGAR - 22660000469928, 22660001070741 22660001075422, 22660001075762, 22660001087349, 22660001188709 NEW DELHI - RAJOURI GARDEN - 22660001076130.

Note: The auction is subject to certain terms and conditions mentioned in the bid form, which is made available before the commencement of auction.

### OSBI

निविदा आमंत्रण सूचना

संपदा विभाग, ग्लोबल आईटीसी सेंटर, सेक्टर 11, सीबीडी बेलापुर, नवी मुंबई – 400614

भारतीय स्टेट बैंक, ग्लोबल आईटीसी सेंटर (एसबीआई, जीआईटीसी), बेलापुर, नयी मुंबई -400614 में इलेक्ट्रिकल सब-स्टेशन उपकरण (बाय-बैक के तहत) के प्रतिस्थापन के लिए इलेक्टिकल कंसल्टेंट्स (कंसल्टिंग फर्म) की सेवाओ के लिए आरएफपी आमंत्रित करता है विस्तृत जानकारी और भविष्य में जारी शुद्धिपत्र, यदि कोई हों, तो कृपया बैंक की वेबसाइट https://bank.sbi/web/sbi-in-the-news/procurement-news को देखें. अंतिम तिथि: 29.03.2023

स्थानः नवी मुंबई तिथि: 09.03.2023

उप. महाप्रबंधक (एफ एंड ओए)

(This is only an advertisement for information purposes and not a prospectus announcement)

## **ITCONS E-SOLUTIONS LIMITED**

Our Company was originally incorporated as Private Limited Company in the name of "ITCONS E-Solutions Private Limited" on May 15, 2007 under the provisions of the Companies Act, 1956 bearing Corporate Identification Number U72900DL2007PTC163427 issued by Registrar of Companies - Delhi. Subsequently, our company was converted into Public Limited Company under the Company was changed to "ITCONS E-Solutions Limited" vide a fresh Certificate of Incorporation consequent upon conversion from Private Company to Public Company dated November 11, 2022 bearing Corporate Identification Number U72900DL2007PLC163427 issued by Registrar of Companies - Delhi. For further details of change in name and registered office of our company, please refer to section titled "Our History and Certain Corporate Matters" beginning on page no 112 of the Prospectus.

Registered Office: Regus Elegance 2F, Elegan Contact Person: Ms. Pooja Gupta, Company Secretary & Compliance Officer; Tel No: +91 120 4149563, E-Mail ID: cs.pooja@itconsinc.com Website: www.itconsinc.com; CIN: U72900DL2007PLC163427 OUR PROMOTERS: (I) MR. GAURAV MITTAL AND (II) MRS. SWATI JAIN

BASIS OF ALLOTMENT

INITIAL PUBLIC OFFER OF 17,00,000 EOUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹10/- EACH ("EOUITY SHARES") OF ITCONS E-SOLUTIONS LIMITED (THE "COMPANY" OR THE "ISSUER") FOR CASH AT OF ₹10/- EACH FOR CASH AT A PRICE OF ₹51/- PER EQUITY SHARE, AGGREGATING TO ₹ 43.86 LAKHS WILL BE RESERVED FOR SUBSCRIPTIONS BY THE MARKET MAKER TO THE ISSUE (THE "MARKET MAKER MAKER"). RESERVATION PORTION"). THE ISSUE LESS MARKET MAKER RESERVATION PORTION I.E. ISSUE OF 16,14,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹10/- EACH FOR CASH AT A PRICE OF ₹51/- PER EQUITY SHARE

SCRR AS AMENDED. THIS ISSUE IS A FIXED PRICE ISSUE AND ALLOCATION IN THE NET OFFER TO THE PUBLIC WILL BE MADE IN TERMS OF REGULATION 253(2) OF THE SEBI (ICDR) REGULATIONS, 2018. (For further details please see "The Issue" beginning on page no. 38 of the Prospectus.)

THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES IS ₹ 10/- EACH AND THE ISSUE PRICE IS ₹ 51/- EACH. THE ISSUE PRICE IS 5.1 TIMES OF THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES. ISSUE PROGRAMME: ISSUE OPENED ON: FEBRUARY 28, 2023 and CLOSED ON: MARCH 02, 2023 PROPOSED DATE OF LISTING: MARCH 13, 2023\*.

The Equity Shares offered through Prospectus are proposed to be listed on the SME Platform of BSE Limited ("BSE"). Our Company has received in-principal approval letter dated January 24, 2023 from BSE for using its name in the offer document for listing of our shares on the SME Platform of BSE. For the purpose of this Issue, the Designated Stock Exchange will be the BSE Limited ("BSE"). The trading is proposed to be commenced on or about March 13, 2023\*.

\* Subject to receipt of listing and trading approvals from the BSE Limited. SUBSCRIPTION DETAILS

The Issue was subscribed to an extent of 18.81 times i.e., Gross Subscription of Rs. 1,63,09,80,000/- for 3,19,80,000 equity shares were based on the bid file received from BSE Limited on the day after closure of the Issue received as against Rs. 8,67,00,000/- for 17,00,000 equity shares (including subscription by Market Makers to the Issue). The Issue was subscribed to an extent of 15.69 times (after technical rejection and bids not banked). i.e., Net Subscription of Rs. 1,36,02,72,000/- for 2,66,72,000 equity shares after eliminating technically rejected and bid not banked applications. **Summary of the Valid Applications Received:** 

п	Sr.	Category	Gross Application		Less: Re	ejections	V	alid	Allotment	
L	No		No. of Application	<b>Equity Share</b>	No. of Application	<b>Equity Share</b>	No. of Application	Equity Share	No. of Application	<b>Equity Share</b>
П	1 3	Retail Individual Applicants	7,037	14,074,000	96	192,000	6,941	13,882,000	422	844,000
ı	2	Non-Retail Applicants	689	12,948,000	5	244,000	684	12,704,000	247	770,000
П	3	Market Maker	1.	86,000		9	1 1	86,000	1	86,000
П		Total	7,727	27,108,000	101	436,000	7,626	26,672,000	670	1,700,000

Allocation: The Basis of Allotment was finalized in consultation with the Designated Stock Exchange – BSE Limited, on March 06, 2023.

A. Allocation to Market Maker (After Technical & Multiple Rejections and Withdrawal): The Basis of Allotment to the Market Maker, at the issue price of ₹51/- per Equity Share, was finalised in consultation with BSE Limited The category was subscribed by 1.00 time. The total number of shares allotted in this category are 86,000 Equity shares.

Sr. No. of Shares applied for	Number of applications	% to total	Total No. of Shares applied in each	% to total	Ratio of al	lottees to	Number of successful applicants (after rounding)	Total No. of shares allocated/alloted
No (Category wise)	received		category	applica		eants		
1 86000		100.00	86000	100.00	FIRM	- 0		86000
GRAND TOTAL		100.00	86000	100.00			I	86000
			*****		of Allatmont	to the Beteil	Individual Investors at the issue price of ₹51/	non Eau

**B. Allocation to Retail Individual Investors (After Technical & Multiple Rejections and Withdrawal):** The Basis of Allotment to the Retail Individual Investors, at the issue price of \$51/- per Equity Share, was finalized in

- 1	consul	consultation with BSE Limited. The category was subscribed by 16.45 times i.e. for 1,38,82,000 Equity Shares. Total number of shares allotted in this category is 8,44,000 Equity Shares to 422 successful applicants.												
- 1	Sr. No. of Shares applied for Number of applications % to total Total No. of Shares applied in each % to total Ratio of allottees to Number of successful applicants(after rounding) Total No. of shares allocated/alloted													
- 1	No (Category wise) received			category		11	icants							
- 1		2000	6941	100.00	13882000	100.00	422	6941	422	844000				
		GRAND TOTAL 6941 100.00 13882000 100.00 422 844000												

C. Allocation to Other than Retail Individual Investors (After Technical Rejections & Withdrawal): The Basis of Allotment to Other than Retail Individual Investors, at the issue price of ₹51/- per Equity Share, was finalized in consultation with BSE Limited. The category was subscribed by 16.50 times i.e. for 1,27,04,000 shares. Total number of shares allotted in this category is 7,70,000 Equity Shares to 247 successful applicants. The category wise details of the Basis of Allotment are as under:

Sr. | No. of Shares applied for | Number of applications received | % to total | Total No. of Shares applied in each | % to total | Ratio of allottees to applicants | Number of successful applicants | Total No. of shares allocated/alloted

No	(Category wise)	202	12.01	category	0.00	20	202	(after rounding)	72000
	4000	293	42.84	1172000	9.23	36	293	36	72000
2	6000	58	8.48	348000	2.74	11	58	g 11 g	22000
	8000	57	8.33	456000	3.59	14	57	14	28000
- 13	10000	25	3.65	250000	1.97	8	25	8	16000
	12000	27	3.95	324000	2.55	10	27	10	20000
	14000	23	3.36	322000	2.53	10	23	10	20000
	16000	21	3.07	336000	2.64	10	21	10	20000
-	18000	17	2.49	306000	2.41	9	17	9	18000
-	20000	39	5.70	780000	6.14	24	39	24	48000
	22000	8	1.17	176000	1.39	5	8	5	10000
i	24000	9	1.32	216000	1.70	7	9	7	14000
2	26000	ý ý	1.32	234000	1.84	7	9	7	14000
	28000	9	0.73	140000		4			8000
3		10			1.10	9	5	4	
4	30000	10	1.46	300000	2.36		10	9	18000
	32000	3	0.44	96000	0.76	FIRM		3 3	6000
6	34000	2	0.29	68000	0.54	FIRM		2	4000
7	36000	5	0.73	180000	1.42	FIRM		5	10000
3	38000	5	0.73	190000	1.50	FIRM	8	5	10000
			( )			1	5	8	2000
	40000	10	1.46	400000	3.15	FIRM		10	20000
		1				2	10	2	4000
	42000	4	0.58	168000	1.32	FIRM		4	8000
		-			ŭ	1	4		2000
	46000	4	0.58	184000	1.45	FIRM	2 T	4	8000
	70000	7	0.56	107000	1.43	2	4	2	4000
, ,	48000	,	0.20	06000	0.76		- +	(V)	
2	40000	2	0.29	96000	0.76	FIRM		2	4000
	70000		0.44	150000	3	1	2		2000
3	50000	3	0.44	150000	1.18	3	3	3	6000
			3	313	3		3	1	2000
1	52000	2	0.29	104000	0.82	FIRM		2	4000
$\neg$						1	2		2000
5	54000	1	0.15	54000	0.43	FIRM		1 3	4000
5	56000	3	0.44	168000	1.32	FIRM		3	6000
-		-	5		9	2	3	2	4000
7	58000	2	0.29	116000	0.91	FIRM		$\frac{\overline{2}}{2}$	4000
- 1	30000	-	0.27	110000	0.71	1 IIXIVI	2		2000
3	60000	4	0.58	240000	1.89	FIRM		4	8000
•	00000	4	0.56	240000	1.09		4	0	
$\rightarrow$	(3000		0.15	(2000	0.40	3	7 4	3	6000
9	62000	1 8	0.15	62000	0.49	FIRM		2 1	4000
0	64000	1 1	0.15	64000	0.50	FIRM		N 1	4000
1	66000		0.15	66000	0.52	FIRM	5	0 0	4000
2	78000	1	0.15	78000	0.61	FIRM	2	g I	4000
3	80000	2	0.29	160000	1.26	FIRM	9	2	8000
			. 5		U S	1	2	i I	2000
	86000	1 1	0.15	86000	0.68	FIRM		1 3	6000
5	90000	2	0.29	180000	1.42	FIRM		2	8000
-					9		2	S 1 8	2000
5	100000	3	0.44	300000	2.36	FIRM	1	3	18000
7	108000	2	0.29	216000	1.70	FIRM		2	12000
3	110000	3	0.44	330000	2.60	FIRM		3	18000
_	110000	,	0.77	330000	2.00	1 11(1/1	3	1	2000
+	120000	1 1	0.15	120000	0.04	FID M	3	1	8000
		1			0.94	FIRM	6	1	
	122000	1 9	0.15	122000	0.96	FIRM		5 I 0	8000
	140000	1 8	0.15	140000	1.10	FIRM	8		8000
2	150000	2	0.29	300000	2.36	FIRM		2	16000
		3	4 9	the state of the s	3	9 I 3	2	(c) I 3.	2000
	160000	2	0.29	320000	2.52	FIRM	à .	2	20000
1	164000	1 3	0.15	164000	1.29	FIRM	9		10000
5	170000	1 1	0.15	170000	1.34	FIRM		§ 1 8	10000
5	192000	1	0.15	192000	1.51	FIRM		1	12000
7	194000	2	0.29	388000	3.05	FIRM		2	24000
8	202000	ī	0.15	202000	1.59	FIRM	8	1	12000
9	240000	1 3	0.15	240000	1.89	FIRM		1 3	14000
	300000	1 3						1 0	18000
	30000	1	0.15	300000	2.36	FIRM		9	18000
	930000 GRAND TOTAL	684	0.15 100.00	930000 12704000	7.32 100.00	FIRM		1 247	56000
		68/	100 00	127/04000	100.00			74.7	770000

In terms of the Prospectus dated February 17, 2023 and as per the SEBI (ICDR) Regulations, 2018 wherein a minimum of 50% of the net offer of shares to the Public shall initially be made available for allotment to retail individual investors. The balance net offer of shares to the public shall be made available for allotment to a) individual applicants other than retail investors and b) other investors, including Corporate Bodies / Institutions irrespective of number of shares applied for. The unsubscribed portion of the net offer to any one of the categories specified in (a) or (b) shall be made available for allocation in the other category, if so required. "For the purpose of sub-regulation (2) of regulations 253, if the retail individual investor category is entitled to more than fifty per cent on proportionate basis, the retail individual investors shall be allocated that higher percentage".

The instructions to Self Certified Syndicate Banks for unblocking the amount has been processed on or prior to March 09, 2023. Further, the CAN-cum-Refund advices and allotment advice and/or notices will be forwarded to the address/email id of the Applicants as registered with the depositories as filled in the application form on or before March 10, 2023. In case the same is not received within 10 days, investors may contact at the address given below The Equity Shares allocated to successful applicants are being credited to their beneficiary accounts subject to validation of the account details with the depositories concerned. The Company is taking steps to get the Equity Shares admitted for trading on the BSE SME Platform within six working days from the date of the closure of the Issue.

Note: All capitalized terms used and not defined herein shall have the respective meanings assigned to them in the Prospectus dated February 17, 2023 ("Prospectus")

Investors are requested to note that the details of the allotment made would also be hosted on the website of the Registrar to the Issuer, http://cambridge.cameoindia.com/Module/IPO\_Status.aspx. All future correspondence in this regard may kindly be addressed to the Registrar to the Issue quoting full name of the First/ Sole applicants, serial number of the Application Form, number of shares applied for and Bank Branch where the application had been lodged and payment details at the address of the Registrar given below:

CAMEO CORPORATE SERVICES LIMITED "Subramanian Building", #1, Club House Road, Chennai - 600 002, India

Telephone: +91-44-40020700, 28460390 Email: investor@cameoindia.com Website: www.cameoindia.com Contact Person: Ms. K. Sreepriya SEBI Registration Number: INR000003753 CIN: U67120TN1998PLC041613

> Gaurav Mittal Managing Director

For ITCONS E-SOLUTIONS LIMITED

Date: March 09, 2023 DIN: 01205129 DISCLAIMER CLAUSE OF BSE: IT IS TO BE DISTINCTLY UNDERSTOOD THAT THE PERMISSION GIVEN BY BSE LIMITED ("BSE") SHOULD NOT IN ANY WAY BE DEEMED OR CONSTRUED THAT THE CONTENTS OF THE PROSPECTUS OR THE PRICE AT WHICH THE EQUITY SHARES ARE OFFERED HAS BEEN CLEARED, SOLICITED OR APPROVED BY BSE, NOR DOES IT CERTIFY THE

CORRECTNESS, ACCURACY OR COMPLETENESS OF ANY OF THE CONTENTS OF THE PROSPECTUS. THE INVESTORS ARE ADVISED TO REFER TO THE PROSPECTUS FOR THE FULL TEXT OF THE DISCLAIMER CLAUSE PERTAINING TO BSE.

THE LEVEL OF SUBSCRIPTION SHOULD NOT BE TAKEN TO BE INDICATIVE OF EITHER THE MARKET PRICE OF THE EQUITY SHARES ON LISTING OR THE BUSINESS PROSPECTS OF ITCONS E-SOLUTIONS LIMITED



ग्राम : चिरई की सीमा।

ाद करूर वश्य बक लामटड प्लॉट नंबर 9, भू तल, एसबीआई मुख्य शाखा के पास, बैंकिंग सर्कल, सेक्टर नं. 9, गांधीधाम—370201, ईमेल आईडी: gandhidham@kvbmail.com, फोन नंबर: 02836—235029/28

भातभात हित (प्रवतन) ।नयमावला २००२ क ।नयम ९(१) क प्रावधान क साथ पाठत ।वत्ताय पारसपात्तया क प्रातभातकरण पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत अचल परिसंपत्तियों के विक्रयार्थ ई-नीलामी विक्रय सुचना। एतदद्वारा जनसाधारण तथा विशेष रूप में ऋणकर्ता(ओं) और गारंटर(ओं) को सूचित किया जाता है कि प्रतिभूत ऋणदाता, दि करूर वैश्य बैंक लिमिटेड के पास बंधककृत / प्रभारित निम्न विवरणित अचल संपत्ति, जिसका रचनात्मक / भौतिक (जो भी लागू हो) अधिग्रहण दि करूर वैश्य बैंक लिमिटेंड के प्राधिकृत अधिकारी, प्रतिभूत ऋणदाता द्वारा कर लिया गया है, का विक्रय 31.03.2023 को ''जैसी है जहां है''. ''जैसी है जो है'' और ''वहां जो कुछ भी है'' आधार पर किया जायेगा। यह विक्रय रु. 196,88,07,754.54 (रुपये एक सौ छियानबे करोड अटटासी लाख सात हजार सात सौ चौव्वन एवं चौव्वन पैसे मात्र) की वसुली के लिये जायेगा, जो कि (क) मैसर्स महेश इंडस्टीज प्राइवेट लिमिटेड, जिसका पंजीकत कार्यालय प्लॉट नंबर: 72 / 24, स्वर्ण पार्क, मंडका, नई दिल्ली-110 041 में स्थित है, (ख) श्री अशोक कुमार मित्तल पुत्र स्वर्गीय रित राम मित्तल, निवासी मकान नं. 2143, सेक्टर 13, अर्बन एस्टेट, करनाल 132001, (ग) श्री सौरभ गोयल पुत्र श्री सुशील गोयल, निवासी मकान नं. 2/12, सेक्टर–11, रोहिणी, दिल्ली–110085, (घ) श्रीमती सीमा मित्तल पत्नी श्री भारत मित्तल, निवासी मकान नंबर—205, सेक्टर—13, अर्बन एस्टेट, करनाल, (ड.) श्री हरीश सिंगला पुत्र श्री बाबू राम सिंगला, निवासी बी-40, मधु विहार, आई.पी. एक्सटेंशन, कड़कड़डूमा, त्रिलोकपुरी, दिल्ली की ओर से दि करूर वैश्य बैंक लिमिटेड, प्रतिभृत ऋणदाता को देय-भग्तेय है।

मद संख्याः १ के लिए आरक्षित मूल्य रु. ८,६८,८९,१०५ / – (रुपये आठ करोड़ अड़सठ लाख नवासी हजार एक सौ पांच मात्र) होगा तथा बयाना राशि रु. 86,88,910 / – होगी। मद संख्याः २ के लिये आरक्षित मूल्य रु. 2,83,50,000 / – (रुपये दो करोड तिरासी लाख पचास हजार मात्र) होगा तथा बयाना राशि रु. 28,35,000 / – होगी।

#### अचल संपत्ति का विवरण

मद सं. 1: | राजस्व सर्वेक्षण संख्या 22 / 1, क्षेत्रफल एकड़ 10—34 गुंठा (43,901 वर्ग मीटर) में गोदाम प्रयोजन / वाणिज्यिक संपत्ति के लिए भूमि जो ग्राम' वरसाना, त.: गांधीधाम, जनपदः कच्छ (गूजरात) में स्थित तथा इस प्रकार परिसीमित है: पूर्व— राजस्व सर्वेक्षण संख्या 22/2, पश्चिम— राजस्व सर्वेक्षण संख्या 23 और 21, उत्तर— अंजार से भचाऊ तक सडक. दक्षिण—

मद सं. 2: सर्वेक्षण सं. 22 / 2, पैकी 1 पैकी 1 (पुराना राजस्व सर्वेक्षण संख्या 13) अहमदाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग, किरण पेट्रो पंप के पास, ग्राम वरसाना. तहसील अंजार, जनपद कच्छ (गुजरात) में स्थित औद्योगिक शेड्स/भूमि एवं भवन माप लगभग 9,712 वर्ग मीटर, और निम्नानुसार परिसीमित हैः पूर्व— ग्राम नानी चिरई का सिम, पश्चिम— सर्वेक्षण संख्या 22 / 1, उत्तर— सर्वेक्षण सं. 22 पैकी, दक्षिण— राष्ट्रीय राजमार्ग।

विक्रय के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए कृपया दि करूर वैश्य बैंक लिमिटेड की वेबसाइट अर्थात् www.kvb.co.in/ में नीलामीं के तहत तथा सेवा प्रदाता, श्री विजय कुमार जे, मोबा: 7305081260 / 7200538774, लैंडलाइन: 080-42440631, मेल: solutions@matexnet.com के वेब पोर्टल www.matexauctions.com पर भी दिए गए लिंक को देखें।

रिफाएर्स आधानयम 2002 क ।नयम ९(१) क अंतगत १५ ।दवसाय साविधक सूचना

आर गारटरा का एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि व इ—नालामा का तिथि स पूर्व अद्यतन ब्याज आर अ `क्त अंकितानुसार बकाया राशि का भुगतान कर दें। भुगतान करने में विफल रहने पर अनुसूचीगत संपत्ति की नीलामी/विक्रय कर दिया जायेगा तथा शेषि बकाया राशि, यदि कोई हो, की वसली ब्याज एवं लागत सहित की जायेगी।

ज्ञात ऋणभारः बैंक को कर बकाया के संबंध में गुजरात के राज्य कर विभाग से सूचना प्राप्त ह्यी है।

दिनांक : 10-03-2023, स्थान : गांधीधाम प्राधिकृत अधिकारी, दि करूर वैश्य बैंक लिमिटेड

हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (आईआईएफएल-एचएफएल) कॉर्पोरेट कार्यालय : प्लॉट नं. 98, फेज-IV, उद्योग विहार, गुरुग्राम-122015, (हरियाणा) तथा शाखा कार्यालय : कार्यालय सं. 1, प्रथम तल महालक्ष्मी मेटो टॉवर, प्लॉट सं. सी-1, सेक्टर-4, वैशाली, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201010 के पास बंधक अचल सम्पत्ति की बिक्री। जैसा कि आईआईएफएल एचएफएल के अधिकृत प्राधिकारी (''एओ'') ने आईआईएफएल-एचएफएल के बकायों की वसली के लिए अधिनियम की धारा 13(2) के तहत जारी सचना के अनुसार निम्नलिखित ऋण खातों/प्रॉस्पेक्ट सं. में यहाँ नीचे उल्लिखित सम्पत्ति का ''जहाँ है जैसे है'' तथा ''जो है यही है'' आधार पर बिक्री करने के अधिकार सहित कब्जा कर लिया था। यह बिक्री अधोहस्ताक्षरी द्वारा वेबसाइट www.bankeauctions.con पर पावधानित ई-नीलामी प्लेटफॉर्म के माध्यम से सम्पन्न की जायेगी। कर्जहार(गें)/सह-कर्जहार(गें)/

जमानती(यों) के नाम	तिथि तथा राशि	आस्ति का विवरण	की तिथि	मूल्य	
1. सोमबीर 2. श्रीमती पिस्ता देवी	09-सित2022 तथा रु. 23,15,656 (रुपये तेईस लाख पन्द्रह हजार छः सौ	अग्र <b>लिखित सम्पत्ति का समस्त भाग</b> : प्लॉट नंबर ए-10/4, एसएफ-03 रियर आरएचएस	17-फर2023 तिथि 25-फर2023	रु. 7,00,000/- (रुपये सात लाख मात्र)	
( प्रॉस्पेक्ट नं. 889894)	छप्पन मात्र) संविदा वृद्धि राशि रु. 20,000/-	यूनिट, क्षेत्रफल 526 वर्ग फीट (कारपेट एरिया) और 585 वर्ग फीट (सुपर बिल्ट अप एरिया), छत के अधिकार के साथ, डीएलएफ अंकुर विहार लोनी, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, भारत- 201010	तक कुल बकाया राशि रु. 20,45,670/- (रुपये बीस लाख पैंतालीस हजार छः सौ सत्तर मात्र)	जमा धरोहर राशि (ईएमडी रु. 70,000/- (रुपये सत्तर हजार मात्र)	
1. श्री भगत सिंह 2. श्रीमती प्रभा देवी (प्रॉस्पेक्ट नं. 789831)	(रुपये बीस हजार मात्र) 13-सित2022 रु. 14,81,324/- (रुपये चौदह लाख इक्यासी हजार तीन सौ चौबीस मात्र)	अग्रलिखित सम्पति का समस्त भाग : आवासीय फ्लैट नंबर 82 जीएफ, कुल क्षेत्रफल 31 वर्ग मीटर, ब्लॉक-ए, सेक्टर- ओमिक्रॉन- 03, ग्रेटर नोएडा, जिला गौतम बुद्ध नगर, उत्तर	16-दिस2022 तिथि 25-फर2023 तक कुल बकाया राशि रु. 15,67,059/- (रुपये पन्द्रह लाख सडसठ	रु. 4,50,000/- (रुपये चार लाख पचास हजार जमा धरोहर राशि (ईएमडी रु. 45,000/-	
	संविदा वृद्धि राशि रु. 20,000/- (रुपये बीस हजार मात्र)	प्रदेश, भारत- 201301 (कारपेट एरिया माप 283.9 वर्ग फीट)	हजार उनसठ मात्र)	(रुपये पैंतालीस हजार मात्र)	
	के निरीक्षण की तिथि : 2023 1100 बजे -1400 बजे	<b>ईएमडी की अन्तिम तिथि</b> 12-अप्रैल-2023 को 5 बजे अप. त	– नीलामी की तिथि∕समय –2023 1100 बजे–1300 बजे		
भुगतान का माध्यम : सभी भु खाता विवरण निम्नवत हैं : (	गुगतान ''आईआईएफएल होम फाइनेंस (क) खाते का नाम : आईआईएफए	िलिमिटेड '' के पक्ष में गुरुग्राम में देय डिमाण ल हो फाइनेंस लिमिटेड, (ख) बैंक का नाम	ड ड्राफ्ट द्वारा या आरटीजीएस : स्टैण्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटे	∕एनईएफटी के माध्यम किये जार् ड, (ग) खाता नं. −9902879 ३	

ई-नीलामी में भाग लेने हेतु इच्छुक संविदाकारों को अग्रिम में ही सेवा प्रदाता https://www.bankeauctions.com के साथ अपने विवरण पंजीकृत कराने होंगे और लॉगिन खाता, लॉगिन आईडी त पासवर्ड सजित करना होगा। इच्छक संविदाकारों को अपने ''निविदा प्रपत्र'' ईएमडी के प्रति भगतान, केवाईसी तथा पैन कार्ड की प्रति के साथ उपर्यक्त शाखा कार्यालय पर जमा करना/भेजना होगा।

बाद ऋण संख्या, (घ) आईएफएससी कोड : रउइछ००३६००१, (ङ) बैंक का पता : स्टैण्डर्ड चार्टर्ड बैंक, ९०, एम.जी. रोड, फोर्ट, मुम्बई-४००००१

संविदाकार अपने प्रस्ताव ''संविदा वृद्धि राशि'' के कॉलम के तहत उल्लिखित राशि के गणक में बढायेंगे। यदि संविदा नीलामी बन्द होने के समय के अन्तिम 5 मिनटों में रखी जाती है तो बन्द होने का समय स्वतः ही 5 मिनट आगे बढ जायेगा।

सफल संविदाकार को एओ द्वारा संविदा मूल्य की स्वीकृति के 24 घण्टे के भीतर संविदा राशि का 25% (ईएमडी के समायोजन के बाद) जमा करना होगा और संविदा राशि का शेष 75% प्रतिभूत लेनदार द्वार बिक्री की पष्टि के 15 दिनों के भीतर जमा करनी होगे। सभी जमा राशियां तथा भगतान निर्धारित भगतान माध्यम में करने होंगे। क्रेता को सेस. प्रयोज्य स्टाम्प शल्क, शल्क एवं अन्य विधिक देयताओं अथवा सम्पत्ति से सम्बन्धित अन्य सभी देयताओं जैसे निगम कर, बिजली के प्रभार, भिम एवं अन्य आकस्मिक लागतों, प्रभारों तथा सभी करों एवं दरों, बाह्य व्ययों का वहन करना होगा।

संविदाकारों को ई-नीलामी बिक्री कार्यवाहियों में भाग लेने हेतु अपनी संविदाएं जमा करने से पूर्व नीलामी बिक्री तथा नीलामी आवेदन प्रपत्र के विस्तृत नियम एवं शर्ती हेतु वेबसाइट https://bankeauctions.com तथा https://www.iifl.com/home-loans/properties-for-auction देखने का परामर्श दिया जाता है।

अधिक विवरण, सहायता प्रक्रिया तथा ई-नीलामी पर प्रशिक्षण के लिए संभावित संविदाकार सेवा प्रदाता से ई-मेल आईडी : support@bankeauctions.com, सपोर्ट हेल्पलाइन नम्बर : 7291981124/25/26

एतद्वारा उपर्युक्त कथित कर्जदारों को भौतिक कब्जा लेते समय 7 दिनों के भीतर प्रतिभृत आस्ति पर पड़ी हुई वस्तुएं हटाने की सचना दी जाती है अन्यथा आईआईएफएल–एचएफएल इन परिस्थितियों में सम्पत्ति के किसी नकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। एतद्वारा कर्जदारों को सचना दी जाती है कि यदि वे उपर्युक्त कथित वस्तुएँ हटाने में असफल रहते हैं तो इसे कानून के अनुसार बेच दिया जायेगा।

यदि उपर्युक्त निर्धारित समय के भीतर सफल संविदाकार/नीलामी क्रेता द्वारा किसी भी चरण में भुगतान में चुक होती है तो बिक्री निरस्त हो जायेगी और पहले से अदा की गयी राशि (ईएमडी सहित) जब्त कर र्ल

जायेगी तथा सम्पत्ति को पुनः बिक्री पर रखा जायेगा। एओ को बिना कोई कारण बताइए निविदा/नीलामी के नियम एवं शर्तों को स्थगित/निरस्त अथवा परिवर्तित करने का अधिकार है। यदि निविदा/नीलामी में कोई विवाद होता है तो आईआईएफएल–एचएफएल के एओ का निर्णय अन्तिम होगा।

सरफैसी अधिनियम, 2002 के नियम 8(6) के तहत 30 दिवसीय बिक्री सचना

एतद्वारा कर्जदार को निविदा/नीलामी की तिथि से पूर्व अद्यतन ब्याज एवं अनुषंगी व्ययों सहित उपर्युक्त राशि का भुगतान करने के लिए अधिसुचित किया जाता है जिसमें असफल रहने पर सम्पत्ति की नीलामी/बिक्री की जायेगी और शेष बकाया, यदि कोई हो, ब्याज तथा लागत सहित वसल किया जायेगा। स्थान : गाजियाबाद/नोएडा. तिथि : 10 मार्च. 2023.

ह./- अधिकृत प्राधिकारी, आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड

19-दिस.-

#### कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु) नियम 8-(1) जैसा कि. अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय आस्तियों के प्रतिभतिकरण एवं पनर्निमाण तथा प्रतिभति हित अधिनयम, 2002 तथा प्रतिभति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित नियम 13(12) के तहत प्रद

शक्तियों के उपयोग में आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड (पूर्व का इण्डिया इन्फोलाइन हाउसिंग फाइनेंस लि.) (आईआईएफएल एचएफएल) का अधिकृत प्राधिकारी होने के नाते, कम्पनी के अधिकृत प्राधिकारी हार नीचे वर्णित कर्जदारों सह-कर्जदारों सूचना में उल्लिखित राशि का कथित सूचना की प्राप्ति के 60 दिनों के भीतर पुनर्भुगतान करने को कहते हुए माँग सूचना निर्गत की गयी थी। कर्जदार के राशि का पुनर्भुगतान करने में असफल रहने के कारण एतद्वारा कर्जदार को तथा जनसामान्य को सुचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने कथित नियम 8 के साथ पठित कथित नियम की धारा 13(4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में नीचे वर्णित सम्पत्ति पर कब्जा कर लिया है। एतद्वारा विशेष रूप से कर्जदार को तथा जनसामान्य को सम्पत्ति के साथ किसी प्रकार का संव्यवहार न करने की चेतावनी दी जाती है और सम्पत्ति के साथ कोई संव्यवहा ब्याज सहित नीचे वर्णित के लिए आईआईएचएफएल के अभियोग का विषय होगा। कर्जदार का ध्यान अधिनयम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकृष्ट किया जाता है, यदि कर्जदार बिक्री या अन्तरण हेतु निर्धारित तिथि से पूर्व किसी भी समय समस्त लागतों, प्रभारों एवं किये गर्ये

व्ययों सहित ''आईआईएफएल एचएफएल'' के बकायों को अदा कर देता है तो ''आईआई एफएल एचएफएल'' द्वारा प्रतिभृत आस्तियों की बिक्री या अन्तरण नहीं किया जायेगा और प्रतिभृत आस्तियों के अन्तरण या बिक्री

कर्जदार( रों )∕सह−कर्जदार( रों ) का नाम	प्रतिभृत आस्ति (अचल सम्पत्ति) का विवरण	कुल बकाया गशि (रु.)	मॉग सूचना की	कब्ज करने व
श्री मंगल महतो, श्रीमती ललिता महतो (प्रॉस्पेक्ट संख्या IL10175096)	अपर ग्राउंड फ्लोर, प्लॉट नंबर 1 का समस्त भाग, सम्पत्ति निजी सं. सी1, माप 396 वर्ग फीट का कारपेट एरिया, 495 वर्ग फीट का बिक्री योग्य एरिया, खसरा नं. 472/1 दल्ल. विस्तारित लाल डोरा गांव बुराड़ी, दिल्ली-110084.	रु. 22,10,382/- (रुपये बाईस लाख दस् हजार तीन सौ बयासी मात्र)	तिथि 22-दिस 2022	तिथि 06-मा 202
श्री रामावध सिंह कुशवाहा, श्रीमती सीमा कुमारी (प्रॉस्पेक्ट संख्या IL10170385)	डीडीए के फ्लैट नंबर 558, ग्राउंड फ्लोर का समस्त भाग, कारपेट एरिया 204 वर्ग फीट, निर्मित क्षेत्र माप 269.10 वर्ग फीट, श्रेणी ए, ग्रुप 3, स्टूडियो अपार्टमेंट, फेज 2, ह्वारका, सेक्टर 16बी, पॉकेट बी, साउथ वेस्ट दिल्ली, दिल्ली, भारत, 110077	ા ૨.૮૮.4 1.9777 - ૧૨૧૧ બારલ લાસ હસા	22-दिस 2022	06-मा 202
श्री तरुण पाठक, श्री अरुण पाठक, श्रीमती वर्सा पाठक (प्रॉस्पेक्ट संख्या IL10137292)	सम्पत्ति नंबर बी-280 का समस्त भाग, एरिया माप 504 वर्ग फीट, सेकेंड फ्लोर छत के अधिकार रहित, ब्लॉक-बी, मोहन गार्डन, उत्तम नगर, वेस्ट दिल्ली, दिल्ली, इंडिया, 110059	हजार चार सौ अठासी मात्र)	21-दिस 2022	06-म 202
श्री हरभजन शर्मा, मैसर्स अनामिका फर्नीचर, श्रीमती अनीता शर्मा (प्रॉस्पेक्ट संख्या IL10134910)	फ्लैट नंबर बी–280 का समस्त भाग, क्षेत्रफल 504 वर्ग फीट, दूसरी मंजिल, छत के अधिकार रहित, ब्लॉक–बी, मोहन गार्ड, उत्तम नगर, पश्चिमी दिल्ली, दिल्ली, भारत–110059	रु.17,58,876/- (रुपए सत्रह लाख अठावन हजार आठ सौ छिहत्तर मात्र)	22-दिस 2022	06-म 202
श्री सुधीर कुमार, श्रीमती रानी राघव, श्रीमती सुनीता रानी (प्रॉस्पेक्ट संख्या 770449)	फ्लैट नं. निजी सं. बी–2, प्लॉट नंबर 5ए, प्रथम तल, भूमि क्षेत्रफल 48 वर्ग गज, आरएचएस, खसरा नंबर 472/1, विस्तारित लाल डोरा, बुराड़ी, उत्तरी दिल्ली –110084।	रु. 19,22,294/- (रुपये उन्नीस लाख बाईस हजार दो सौ चौरानवे मात्र)	26-नव 2022	06-म 202
श्री विजय, श्रीमती नीलम (प्रॉस्पेक्ट संख्या IL10103209)	मकान नंबर 1/10066 का समस्त भाग, ऊपरी ग्राउंड फ्लोर बिना छत के अधिकार के, शीर्ष मंजिल पर जाने के अधिकार के साथ, गली नंबर 3 एच, क्षेत्रफल 54 वर्ग गज, खसरा नंबर 357 में से, पश्चिम गोरख पार्क, शाहदरा, नई दिल्ली, 110032, दिल्ली, भारत।	। २. १५.५५ तर्म लाख तान हजारा	30-नव 2022	06-म 202
श्री गुलशन कुमार, श्री गुलाब सिंह, श्रीमती नीता देवी (प्रॉस्पेक्ट संख्या IL10095192)	भूखंड संख्या 46 की दूसरी मंजिल का समस्त भाग, कारपेट क्षेत्र 362 वर्ग फीट और कुल क्षेत्रफल 426 वर्ग फीट, खसरा संख्या 58/25 गांव हस्तसाल ब्लॉक बी शक्ति विहार मोहन गार्डन एक्सटेंशन उत्तम नगर दिल्ली –110059.		21-दिस 2022	06-म 202
श्री संतोष कुमार, श्रीमती मीना, श्री बाला जी गारमेंट्स एंड गिफ्ट सोप (प्रॉस्मेक्ट संख्या IL10092216)	संपत्ति संख्या 1/6138 (पुराना नंबर 1318) के छत के अधिकार के साथ तीसरी मंजिल का समस्त भाग, भूमि क्षेत्र 360 वर्ग फुट और कारपेट एरिया का माप 230 वर्ग फीट, खसरा नंबर 1597/371 और 1599/372, गली नंबर 2, गांव सिकंदरपुर, पूर्वी रोहताश नगर, शाहदरा, नई दिल्ली, 110032, भारत।	रु.17,35,340/- (रुपये सत्रह लाख पैंतीस हजार तीन सौ चालीस मात्र)	18-अक्टू 2022	06-T
श्री हरीश सेठी, श्रीमती हरविंदर सेठी, श्री हरीश सेठी (प्रॉस्पेक्ट संख्या IL10088181)	पलैट बी -2 का समस्त भाग, पहली मंजिल, एलएचएस, माप 383 वर्ग फीट (कारपेट एरिया) और 426 वर्ग फीट (बिक्री योग्य क्षेत्र), प्लॉट -नं6 और 7, खसरा नंबर 672 मिन, लाल डोरा गांव, बुराड़ी दिल्ली, भारत -110084	रु.31,90,434/- (रुपये इकतीस लाख नब्बे हजार चार से चौंतीस मात्र)	20-दिस 2022	06-T
श्री अविनाश कुमार सोनी, श्रीमती कुसुमलता (प्रॉस्पेक्ट संख्या IL10046986)	अग्रलिखित सम्पत्ति का समस्त भागः प्रथम तल फ्रंट लेफ्ट हैंड साइड, कारपेट एरिया माप 459 वर्ग फीट, निर्मित संपत्ति वाले प्लॉट नंबर 97 और 98 का 540 वर्ग फीट का सुपर बिल्ट–अप एरिया और खसरा नंबर 759, ग्राम नवादा, ब्लॉक–ए, मोहन गार्डन, उत्तम नगर, दिल्ली, 110059, भारत।	र. 15,36,4 18/- (रुपय पद्रह लाख छत्तास	26-सित 2022	06-T
श्री छोटे कुमार, श्रीमती नेहा सरोज (प्रॉस्पेक्ट संख्या IL10032645 और IL10077206)	अग्रलिखित सम्पत्ति का समस्त भागः फ्लैट नंबर 3350 दूसरी मंजिल सेक्टर 9, क्षेत्रफल 331 वर्ग फुट सुपर बिल्ट-अप एरिया, सिद्धार्थ विहार, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, 201009, भारत। संपत्ति सं. 85-ए, माप 50 वर्ग गज (अर्थात 41.80 वर्ग मीटर) क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल 110 वर्ग गज में से, बिना छत के अधिकार के निर्मित पहली मंजिल (पीछे की ओर) का समस्त भाग, खसरा नंबर 67/8 में से, गांव हस्तसाल, दिल्ली, राज्य दिल्ली के राजस्व एस्टेट में स्थित, कॉलोनी ओम विहार, फेज-V, उत्तम नगर नई दिल्ली –110059	तीन सौ अट्टाईस मात्र) और प्रॉस्पेक्ट नंबर	19-दिस 2022	06-H 202
श्री दलजीत सिंह हंसपाल, एलीडा एलीवेटर्स कंपोनेंट्स, श्री कवल जीत सिंह, श्रीमती पलविंदर कौर (प्रॉस्पेक्ट संख्या 956965)	प्लॉट नंबर एफ-40 जीएफ, खसरा नंबर 5/22 का समस्त भाग, माप 146.5 वर्ग गज, ग्राम मटियाला, ओम विहार, एफ-ब्लॉक, उत्तम नगर, उत्तम नगर, पश्चिमी दिल्ली, 110059, दिल्ली, भारत।	हजार चार सौ पंचानवे मात्र)	21-दिस 2022	06−∓ 202
श्री अनादि त्रिपाठी, श्रीमती रेणु (प्रॉस्पेक्ट संख्या IL10042103 और 941081)	अनादि त्रिपाठी, श्रीमती रेणु (प्रॉस्पेक्ट फ्लैट नंबर सी एमआईजी ग्राउंड फ्लोर का समस्त भाग, क्षेत्रफल 700 वर्ग फीट बिल्ट-अप प्रॉस्पेक्ट नं. IL10042103 के		24-सित 2022	06-T
श्री हरेंद्र चौधरी, श्रीमती हृथु चौधरी, रिलायबल एयरकॉन (प्रॉस्पेक्ट संख्याः 933619, 936370 और 947775)	अग्रलिखित सम्पत्ति का समस्त भागः फ्लैट नंबर 001, माप 83 वर्ग गज, अपर ग्राउंड फ्लोर, छत के अधिकार के बिना, संपत्ति संख्या 39-बी और प्लॉट संख्या 26 खसरा नंबर, 64/1/2 में से, गांव पालम के क्षेत्र में स्थित, कॉलोनी राज नगर, नया दिल्ली, दिल्ली, 110045, दिल्ली, भारत	छह सौ दो मात्र) प्रॉस्पेक्ट संख्या 933619 और	14-दिस 2022	06-F 202
श्री विनय प्रताप सिंह, श्रीमती कविता	गली नंबर 5 की आबादी में सिकंदरपुर गांव में स्थित खसरा नंबर 29 में से 83.61 वर्ग मीटर यानी 100 वर्ग गज जमीन की संपत्ति संख्या 48 पुराने प्लॉट नंबर 13 का समस्त भाग, कबीर		14-दिस	06- <del>1</del>

यानी 100 वर्ग गज जमीन की संपत्ति संख्या 48 पुराने प्लॉट नंबर 13 का समस्त भाग, कबीर हजार छत्तीस मात्र) प्रॉस्पेक्ट संख्या 929315 2023 2022 राघव. श्री तेजवीर सिंह, विनय इंडस्ट्री नगर, इलाका शाहदरा दिल्ली, दिल्ली, 110093, दिल्ली, भारत और रुपये 1,35,484/- (रुपये एक लाख (प्रॉस्पेक्ट संख्या 929315 और पैंतीस हजार चार सौ चौरासी मात्र) प्रॉस्पेक्ट 936519) संख्या 936519 के तहत खसरा नंबर 3/18 में से प्लॉट नंबर 79 का समस्त भाग, प्लॉट एरिया के साथ 450 वर्ग फीट प्रॉस्पेक्ट नंबर 912376 के तहत रु. 14.71.034/-श्री आशतोष पाण्डेय, श्री रमाशंकर 09-दिस.-06-मार्च-(रुपये चौदह लाख इकहत्तर हजार चौंतीस मात्र) और 1014 वर्ग फुट का निर्मित क्षेत्र, ग्राम रजापुर खुर्द कॉलोनी के क्षेत्र में स्थित है, पाण्डेय, श्रीमती संगीता देवी 2023 और प्रॉस्पेक्ट नंबर 939696 के तहत विकासकंज वेस्ट ब्लॉक मोहन गार्डन उत्तम नगर नई दिल्ली, 110059, भारत (प्रॉस्पेक्ट नं. 912376 और 939696) रु. 1,50,288 (रुपये एक लाख पचास हजार दे सौ अट्ठासी मात्र) प्लॉट नंबर सी-3/7, फ्रंट आरएचएस, डीएलएफ पर निर्मित संपत्ति फ्लैट नंबर 24-सित -06-मार्च-श्री मनोज कुमार, श्रीमती रेखा रु.25.49.753/- (रुपये पच्चीस लाख उनचास एफएफ-3 का समस्त भाग, माप 565 वर्ग फीट का कारपेट एरिया और 628 वर्ग फीट के (प्रॉस्पेक्ट संख्या ९०५८१०) 2022 2023 हजार सात सौ तिरपन मात्र) सुपर बिल्ट-अप एरिया, अंकुर विहार, लोनी, गाजियाबाद, 201102, उत्तर प्रदेश, भारत। रु. 22.65.999/- (रुपये बाईस लाख पैंसठ हजार श्री देवजीत सिंह, ओम साई प्रॉपर्टीज, 20-दिस.-06-मार्च-फ्लैट प्रा. नं. 3 का समस्त भाग, पहली मंजिल, माप 62.6 वर्ग गज, पश्चिम की नौ सौ निन्यानवे मात्र) प्रॉस्पेक्ट संख्या 943977 के श्रीमती पनम (प्रॉस्पेक्ट संख्या 943977 ओर का भाग, खसरा नं. 844 और 845 में से, ग्राम बराडी आबादी विस्तारित लाल डोरा

माध्यम से. रु. 11.68.373/- (रुपये ग्यारह लाख 899281, 934187, 946072) दिल्ली-110084 में स्थित अड़सठ हजार तीन सौ तिहत्तर मात्र) प्रॉस्पेक्ट नंबर 899281 के माध्यम से, रुपये 98,344/- (रुपये अंटरानबे हजार तीन भी चौतालीस मात्र) पॉस्पेक्ट नंबर 946072 के तहत 5- दिसंबर -2022 तक बकाया और रु. 1.62.059/- (रुपये एक लाख बासठ हजार उनसठ मात्र) प्रॉस्पेक्ट संख्या 934187 के माध्यम से

श्री धीरज कुमार, श्रीमती मीना छेटेरी, श्री फ्लैट नंबर डब्ल्यूजेड-9 का समस्त भाग, माप 750 वर्ग फीट कारपेट एरिया, दूसरी मंजिल रु. 22,42,217/- (रुपये बाईस लाख बयालीस

पवन कुमार, श्रीमती सीता (प्रॉस्पेक्ट 📗 पीछे की ओर, ओम विहार, फेज- 3, उत्तम नगर, दिल्ली, 110059, दिल्ली, भारत।

संख्या 837884) <mark>अधिक विवरण के लिए सम्पर्क करें</mark> : अधिकृत प्राधिकारी, शाखा कार्यालय : प्लॉट नं. 30/30ई, अपर ग्राउण्ड फ्लोर, मेन शिवाजी मार्ग, नजफगढ़ रोड, जगुआर शोरूम के पास, मोती नगर, नई दिल्ली/ ए-1सी ए ए-1डी, दुसरी मंजिल, नोएडा सेक्टर 16, नोएडा, गौतम बुद्ध नगर-201301/कार्यालय सं. 1. प्रथम तल, महालक्ष्मी मेटो टॉवर, प्लॉट सं. सी-1. सेक्टर-4. वैशाली. गाजियाबाद. उत्तर प्रदेश-201010 अथवा कॉर्पोरेट

हजार दो सौ सत्रह मात्र

कार्यालय : प्लॉट सं. 98, फेज-IV, उद्योग विहार, गुरुग्राम, हरियाणा। ह./- अधिकत प्राधिकारी, कते आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड स्थान : दिल्ली दिनांक : 10.03.2023

www.readwhere.com

Place: New Delhi, India



# पंचायत में पड़े फंड का सरपंच मार्च तक इस्तेमाल कर लें, बेशक आंदोलन करते रहें : देवेंद्र बबली

### बाबा विचार पूरी धाम, दनौदा खुर्द में सम्मान समारोह दौरान मुख्य अतिथि के तौर पर पंचायत मंत्री ने किया संबोधित

सवेरा न्यूज/मनदीप

नरवाना, 9 मार्च : बाबा विचार पूरी धाम, दनौदा खर्द में सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। जिसमें मुख्यातिथि के तौर पर पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली ने शिरकत की तथा अध्यक्षता मंहत महेश गिरी ने की। पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली ने ग्रामीणों को संबोधित करते कहा कि उनको सम्मान समारोह में बुलाकर जो मान-सम्मान दिया है, उसके लिए वे परी ग्राम पंचायत का धन्यवाद करते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार सभी मूलभूत सुविधाओं को प्रत्येक गांव में पहुंचाना चाहती है। सवा 3 वर्ष का समय हमारे गठबंधन की सरकार को हो चुका है। पहले की सरकारें भ्रष्टाचार के बारे में बातें करती रही हैं, लेकिन उन्होंने कोई कार्य नहीं किया। गठबंधन सरकार में भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने का कार्य किया। पंचायत मंत्री बनने के बाद जब अधिकारियों से उनकी बैठक हुई, तो उन्होंने देखा कि कागजों में तो बहुत सारी योजनाएं हैं, इनको धरातल पर ले जाने की जरूरत है।



व्यवस्था, गांव के अंदर पार्कों का निर्माण गठबंधन सरकार ने शुरू किया। उन्होंने कहा कि पिछले दो दशक

लोगों की सेवा करने का मंच था. मैं आज भी इसको लोगों की मूलभूत सुविधाएं देने वाला मंच ही मानता हूं।उन्होंने कहा कि वे सरपंच को कहना चाहते हैं कि जो पंचायतों के फंड में रुपए पडे हैं, उससे गांव का विकास करवाओं क्योंकि ग्राम पंचायत में पैसे का इस्तेमाल न होने पर मार्च के बाद वह पैसा वापस हो जाएगा। आप अपने मांगों के लिए बेशक आंदोलन करते रहें. लेकिन फंड का इस्तेमाल जरूर करें।

उन्होंने कहा कि प्रत्येक गांव को संभालना मेरा कर्तव्य है, यह मेरी ड्यूटी है, पहले जो 15-20 लाख तक की फाइलें मंत्री के साइन के बिना नहीं चलती थी, हमने वह अधिकार छोटे लेवल पर अधिकारियों को देने का काम किया है। उन्होंने सरपंचों पर कटाक्ष करते हुए कहा कि दूध वाली भैंस खड़ी थी और उसके बच्चे को छींका लगा दिया कि वह दूध न पी ले, इसलिए कुछ व्यक्ति कृद रहे हैं, अगर सारा तुम ही पी गए, तो यह गांव वाले कहां जाएंगे। इसका मतलब आप समझ गए होंगे क्या है, जब 5 साल के लिए किसी भी नुमाइंदे को आप चुनते हो, तो उससे काम लेने का कार्य करें। अगर ठीक नहीं लगे तो अगली बार उसको बदल दें, जैसे देश को आजाद करवाया था। उसी तरह मैंने भ्रष्टाचार से आजादी

की शुरूआत करने का कार्य किया है। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत गांव के प्रत्येक घर में पानी देना सरकार का कर्तव्य है। गांव दनौदा खुर्द की गलियों व तालाबों के सुंदरीयकरण की जो मांगे हैं, सरकार द्वारा पूरा कर दिया जाएगा। उन्होंने बाबा विचार पुरी महंत

अवसर

बल्ली

को 51 हजार PUBLIC NOTICE रूपए देने की घोषणा की। इस Late B.B. Swarup, R/o H-69, DDA LIG Flats, Ashok Vihar Phase 1 Delhi -110052, hereby declares सरपंच सुदेश that he has severed all relations with his son Sh Varun Agrawal देवी, जितेंद्र, aged 25 years. My client and his बलकार फौजी. wife and daughter would not be नरेश पहलवान, responsible for any representation, act or omission of the said सुरेश, संजू Sh Varun Agrawal, and any person रानी, रामभगत, dealing with him may do so at his आदि लोग मौजूद रहे।

own risk. Mukul Sharma, Advocate 170, Western Wing, Tis Hazari District Court,

## एसीपी ट्रैफिक ने सर्वे कर फरीदाबाद में रैड स्पॉट चौकों को किया चिन्हित

#### • चौको पर अंडरपास और फुटओवर ब्रिज बनवाने बारे प्रोजेक्ट डायरेक्टर एनएचआईए को लिखा पत्र

सवेरा न्यूज/ नवीन धमीजा

फरीदाबाद, ७ मार्च : राष्ट्रीय राजमार्ग नं. ४४ पर गांव सीकरी फ्लाईओवर के दोनों तरफ, कैली, झाडसैंतली फ्लाईओवर के दोनो तरफ, जेसीबी, एलसन चौक पर पैदल यात्री बहुत अधिक संख्या में डिवाइडर पर ग्रील न होने या बहुत छोटी होने के कारण रोड पार करते है। जिसके सम्बंध में प्रोजेक्ट डायरेक्टर एनएचआईए को ग्रील लगावाने और ग्रील को ऊंची कराने बारे पत्राचार किया गया है। इसके अलावा गुडियर कट और अनाज मंडी कट राष्ट्रीय राजमार्ग नं0 19 पर अत्यधिक सडक दुर्घटनाएं होती थी। जिसको एनएचआईए की मदद से बंद करवाया गया है। अनाज मंडी पर अंडरपास के बनाने से रैड स्पॉट को खत्म किया जा सकता है।

पुलिस प्रवक्ता सूबे सिंह ने बताया कि एसीपी ट्रैफिक विनोद कमार द्वारा फरीदाबाद में यातायात को लेकर चिन्हित किए गए मार्ग में के सम्बंध में बताया है कि गुडियर कट और अनाज मंडी कट राष्ट्रीय राजमार्ग नं0 19 पर अत्यधिक सडक दुर्घटनाएं होती थी, जिसको एनएचआईए की मदद से बंद करवाया गया है। सेक्टर-15 फरीदाबाद मार्किट में कोण लगाकर यातायात व्यवस्था बनाई गई है। जिससे यहां लगने वाले यातायात जाम से

तकरीबन निजात मिल चुकी है। अजरौंदा व बाटा चौक व ओल्ड फरीदाबाद फ्लाईओवर के पास रोड का चौडी करण कराया गया है बाटा चौक फ्लाईओवर के ऊपर वाला रोड एवं साईड दीवार एक्सीडेंट से टूट गया था। जिसको ठीक करवाया गया है। बाटा चौक की तरफ स्लिप रोड को नेशनल हाईवे 19 से मिलवाया गया है वाहनों को राजमार्ग पर चढने के लिए एंट्री कट बनवाया गया। संजय कॉलोनी की तरफ एलसन चौक पर भरने वाले बारिश एवं सीवरेज का मिक्स होकर होने वाले जलभराव के पानी को 600एमएम की पाइप लाइन डालकर एलसन चौक जेसीबी ले जाकर वहां पर पम्प स्टेशन का निर्माण किया गया है जिसे आगे सैक्टर-55 की तरफ आगे ले जाकर नगर निगम द्वारा बनाये गये नाले में डलवाया गया है। सीकरी गांव राष्ट्रीय राजमार्ग नं0 19 पर सरकारी स्कल के सामने डिवाइडर पर ग्रिल नहीं थी। जो स्कुली बच्चे एवं अन्य पैदल यात्री रोड पार करके इधर से उधर जाते थे और सड़क दुर्घटनाओं का शिकार होते थे जो डिवाइडर पर ग्रील लगवाई गई है। फरीदाबाद में कई जगहों पर यातायात नियंत्रण के लिये बोलार्ड लगवाई गई है। एनआईटी एवं बल्लबगढ एरिया में रांग पार्कि ग की वजह से लगने वाले यातायात जाम से बचने के लिये नगर निगम फरीदाबाद के साथ मिलकर 14 पार्किंग लोकेशन का चयन किया है। फरीदाबाद यातायात पुलिस द्वारा अलग से एक कन्ट्रोल रूम स्थापित किया

## ंदेश में अघोषित आपातकाल जैसे हालात कर दिए भाजपा सरकार ने: चंढूनी

सवेरा न्यूज/ कौशिक

पुंडरी, 9 मार्च : भारतीय किसान यनियन (चढ़नी) के राष्ट्रीय अध्यक्ष सरदार ग्रनाम सिंह चढ़नी ने कहा कि आज देश के हालात बहत खराब हो चके हैं। देश मे जाति धर्म मजहब के नाम पर बांटकर संप्रदायिक ताकते देश को तोडऩे का काम कर रही है। चढ़ूनी आज गांव नरडं में ग्रामीणों के साथ गुरनाम सिंह चंढूनी।

भाकियू जिला अध्यक्ष महावीर चहल नरड के निवास पहुंचे। संस्कृति का भी अट्ट हिस्सा है और इसको खत्म करना बेहद भाकियू कार्यकर्ताओं व ग्रामीणों ने महावीर चहल नरड़ के गलत बात है। उन्होंने कहा सिर्फ गांव का सरपंच ही गांव नेतृत्व में फूल मालाओं व शाल भेंट कर सरदार गुरनाम सिंह 🏻 की समस्याओं का समाधान कर सकता है और गांव के विकास चढ़नी का स्वागत किया। चढ़नी ने पत्रकारों से बातचीत करते 🏻 के कार्य करवा सकता है। सरपंच मजबूत होगा प्रदेश मजबूत हुए कहा कि रात के अंधेरे में पंचकूला से सरपंचों को जबरन होगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने सरपंचों से मिलकर उनकी उठाना सरकार की धक्काशाही व तानाशाही को दर्शाता है। बात सुनने की बजाये प्रदर्शनकारी सरपंचों पर लाठीचार्ज करवा सरकार सरपंचों को बातचीत के लिए ना बुला कर अपनी दिया जिसमें महिलाओं और बुजुर्गों को गंभीर चोटें आई हैं। मनमानी पर उतर रही है। वर्तमान सरकार को बदलने के लिए इस मौके पर जिला कार्यकारी अध्यक्ष गुरनाम सिंह फरल, हर वर्ग के लोगों को इकठ्ठा होना पड़ेगा तभी जाकर इस नरेन्द्र मागो माजरी, विक्रम दुसैण, तेजा गिल, कृष्ण मालखेड़ी, तानाशाह सरकार से मुक्ति मिल सकती है। युवा प्रदेशाध्यक्ष जोगिंदर केलरम, बलकार खुराना, पूर्व सरपंच कुलदीप नैन विक्रम कसाना व कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष कर्म सिंह मथाना इयोड खेडी, हरजिन्दर हाबडी, धर्मा नैन, दिलबाग सरपंच, ने कहा कि पंचायती राज एक ऐसा संस्थान है जो न केवल इन्द्र चहल, बलबीर चहल, दीपू भागल, अंकित बाबा लदाना, आजादी के बाद भारत देश का हिस्सा है बल्कि हमारी विकास चहल सहित सैकडों किसान उपस्थित थे।

## होली खेलने के बहाने घर से बुलाकर युवक की निर्मम हत्या

### 🖜 तीन बहनों में इकलौता भाई था मृतक

रेवाड़ी, 9 मार्च : बुधवार को धुलेंडी के दिन होली खेलने के बहाने घर से बुलाकर ले गए गए 21 वर्षीय एक युवक की कुछ युवकों ने लाठी-डंडों व धारदार हथियार से निर्मम हत्या कर दी। तीन बहनों में इकलौते भाई की मौत से घर का चिराग बुझ गया। पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास तेज कर दिए हैं।जानकारी के अनुसार नगर के दिल्ली रोड स्थित शिव नगर पार्ट-2 के 21 वर्षीय अविवाहित युवक संदीप उर्फ भोली को कुछ लोग धुलेंडी पर होली खेलने के बहाने अपने साथ शहर के उत्तम नगर ले गए। वहां हमलावरों ने उस पर लाठी-डंडों व नुकीले हथियार से वार किए। जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। वारदात को अंजाम देकर आरोपी फरार हो गए। घायल संदीप को लोगों

ने ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया। जहां उपचार के दौरान उसने दम तोड दिया। सचना पाकर मॉडल टाउन थाना पलिस भी मौके पर पहुंच गई। मृतक के परिजनों ने कहा कि चार साल पूर्व भी इन्हीं हमलावरों ने संदीप के पेट में चाकू मारा था। ये सभी उससे रंजिश रखते थे। बृहस्पतिवार को मृतक का पोस्टमार्टम कराया गया, उस समय पूरा परिवार व रिश्तेदार मौजूद थे। परिवार के सभी सदस्य इकलौते चिराग की मौत से सदमे में दिखाई दिए। संदीप के पिता की पहले ही मौत हो चुकी है। संदीप घर में अकेला कमाने वाला था और मेहनत मजदूरी करता था।

मॉडल टाउन थाना प्रभारी संजय कुमार ने कहा कि हमले में दो भाइयों किशन व सोनू को लिप्त बताया गया है। उन्होंने गंभीर चोटें मारकर संदीप की हत्या की है। यह हत्या पुरानी रंजिश का परिणाम है। उन्होंने कहा कि आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद पूरे मामले का

## शराबी भाई ने भाई पर बोतल से हमला किया

रेवाड़ी, 9 मार्चः एक शराबी ने अपने ही संगे भाई पर शराब की बोतल से हमला कर दिया। उसके सिर पर गंभीर चोटें आई है। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कस्बा कोसली में मोहल्ला नाहिडया बाजार के भारत ने कहा कि वह प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता है, जिसकी वजह से वह पिछले 2 माह से बाहर रहता है। होली की छुट्टी होने पर वह घर पर आया हुआ था। घर में होली के त्योहार की खुशियां

मनाई जा रही थी। तभी उसका बडा भाई लखनपाल शराब के नशे धृत होकर घर पहुंचा। इस दौरान किसी बात को लेकर दोनों भाइयों के बीच कहासूनी हो गई। आरोपी लखनपाल ने नशे में उस पर हमला कर दिया। आरोपी ने शराब की बोतल उठाकर उसके सिर पर दे मारी। जिससे वह लहूलुहान हो गया। तत्पश्चात आरोपी मौके से भाग गया। घायल भारत को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कोसली थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर जांच कर दी है।

(This is only an advertisement for information purposes and not a prospectus announcement)

#### ITCONS E-SOLUTIONS LIMITED

Our Company was originally incorporated as Private Limited Company in the name of "ITCONS E-Solutions Private Limited" on May 15, 2007 under the provisions of the Companies Act, 1956 bearing Corporate Identification Number U72900DL2007PTC163427 issued by Registrar of Companies – Delhi. Subsequently, our company was converted into Public Limited Company under the Companies Act, 2013 and the name of our Company was changed to "ITCONS E-Solutions Limited" vide a fresh Certificate of Incorporation consequent upon conversion from Private Company to Public Company dated November 11, 2022 bearing Corporate Identification Number U72900DL2007PLC163427 issued by Registrar of Companies – Delhi. For further details of change in name and registered office of our company, please refer to section titled "Our History and Certain Corporate Matters" beginning on page no 112 of the Prospectus

Registered Office: Regus Elegance 2F, Elegance Jasola District Centre, Old Mathura Road, New Delhi, South Delhi - 110025, India Corporate Office: 3rd Floor, B-10, Bajaj Bhawan, Sector-3, Jamna Lal Bajaj Marg, Noida - 201301, Uttar Pradesh, India Contact Person: Ms. Pooia Gupta. Company Secretary & Compliance Officer; Tel No: +91 120 4149563, E-Mail ID: cs.pooja@ OUR PROMOTERS: (I) MR. GAURAV MITTAL AND (II) MRS. SWATI JAIN

PER EQUITY SHARE, INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ₹41/- PER EQUITY SHARE (THE "ISSUE PRICE"), AGGREGATING TO ₹ 867.00 LAKHS ("THE ISSUE"), OF WHICH 86,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF TID-EACH FOR CASH AT A PRICE OF TS1-PER EQUITY SHARE, AGGREGATING TO T 43.86 LAKHS WILL BE RESERVED FOR SUBSCRIPTIONS BY THE MARKET MAKER TO THE ISSUE (THE "MARKET MAKER AGGREGATING TO ₹ 823.14 LAKHS IS HERE IN AFTER REFERRED TO AS THE "NET ISSUE". THE ISSUE AND THE NET ISSUE WILL CONSTITUTE 33.81% AND 32.10% RESPECTIVELY OF THE POST ISSUE PAIDU

THIS OFFER IS BEING MADE IN TERMS OF CHAPTER IX OF THE SEBI (ISSUE OF CAPITALAND DISCLOSURE REQUIRMENT) REGULATIONS, 2018 (THE "SEBI ICDR REGULATIONS") READ WITH RULE 19(2)(b)(i) OF SCRR AS AMENDED. THIS ISSUE IS A FIXED PRICE ISSUE AND ALLOCATION IN THE NET OFFER TO THE PUBLIC WILL BE MADE IN TERMS OF REGULATION 253(2) OF THE SEBI (ICDR) REGULATIONS, 2018. (For further details please see "The Issue" beginning on page no. 38 of the Prospectus.)

THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES IS ₹ 10/- EACH AND THE ISSUE PRICE IS ₹ 51/- EACH. THE ISSUE PRICE IS 5.1 TIMES OF THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES

ISSUE PROGRAMME: ISSUE OPENED ON: FEBRUARY 28, 2023 and CLOSED ON: MARCH 02, 2023

The Equity Shares offered through Prospectus are proposed to be listed on the SME Platform of BSE Limited ("BSE"). Our Company has received in-principal approval letter dated January 24, 2023 from BSE for using its nam

The Issue was subscribed to an extent of 18.81 times i.e., Gross Subscription of Rs. 1,63,09,80,000/- for 3,19,80,000 equity shares were based on the bid file received from BSE Limited on the day after closure of the Issue received as against Rs. 8,67,00,000/- for 17,00,000 equity shares (including subscription by Market Makers to the Issue). The Issue was subscribed to an extent of 15.69 times (after technical rejection and bids not banked). i.e., Net Subscription of Rs. 1,36,02,72,000/- for 2,66,72,000 equity shares after eliminating technically rejected and bid not banked applications.

Summary of the Valid Applications Received:

	Sr.	Category	Gross Application		Less: Rejections		Vi	ılid	Allotment	
L	No		No. of Application	Equity Share						
	1	Retail Individual Applicants	7,037	14,074,000	96	192,000	6,941	13,882,000	422	844,000
	2	Non-Retail Applicants	689	12,948,000	5	244,000	684	12,704,000	247	770,000
	3	Market Maker	1	86,000	-		1	86,000	1	86,000
		Total	7.727	27.108.000	101	436,000	7.626	26.672.000	670	1.700.000

A. Allocation to Market Maker (After Technical & Multiple Rejections and Withdrawal): The Basis of Allotment to the Market Maker, at the issue price of ₹51/- per Equity Share, was finalised in consultation with BSE Limited The category was subscribed by 1.00 time. The total number of shares allotted in this category are 86 000 Equity shares

l No l	(Category wise)	Number of applications received	% to total	Total No. of Shares applied in each category	% to total	Ratio of allottees to applicants		Number of successful applicants (after rounding)	Total No. of shares allocated/alloted
1	86000	1	100.00	86000	100.00	FIRM		1	86000
	GRAND TOTAL	1	100.00	86000	100.00			1	86000

onsultation with BSE Limited. The category was subscribed by 16.45 times i.e. for 1,38,82,000 Equity Shares. Total number of shares allotted in this category is 8,44,000 Equity Shares to 422 successful applicants % to total Total No. of Shares applied in each Ratio of allottees to

C. Allocation to Other than Retail Individual Investors (After Technical Rejections & Withdrawal): The Basis of Allotment to Other than Retail Individual Investors, at the issue price of ₹51/- per Equity Share, was finalized in consultation with BSE Limited. The category was subscribed by 16.50 times i.e. for 1,27,04,000 shares. Total number of shares allotted in this category is 7,70,000 Equity Shares to 247 successful The category wise details of the Basis of Allotment are as under:

% to total | Total No. of Shares applied in each | % to total | Ratio of allottees to applicants | Number of successful applicants | Total No. of shares allocated/alloted

No	No. of Shares applied for	Number of applications received	% to total	Total No. of Shares applied in each	% to total	Ratio of allotte	es to applicants	Number of successful applicants	lotal No. of shares allocated/alloted
No	(Category wise)	202	43.94	category 1172000	0.22	26	202	(after rounding) 36 11	72000
1 - 1	4000 6000	293 58	42.84 8.48 8.33	248000	9.23 2.74 3.59	36 11	293 58	30	72000 22000
	8000	57	8.48	348000	2.74	14	58		28000
3	10000	3/	3.65	456000 250000	1.97		57 25	14	16000
4		25 27				8		8	
5	12000	27	3.95	324000	2.55	10	27	10	20000
6	14000	23 21	3.36 3.07	322000	2.53 2.64	10 10	23 21	10	20000
	16000	21	3.07	336000		9	21	10	20000
8	18000	17	2.49	306000	2.41		17	9	18000
9	20000	39	5.70	780000	6.14	24	39	24	48000
10	22000	8	1.17	176000	1.39	5 7	8	5	10000
11	24000	9	1.32 1.32	216000	1.70	7	9	7	14000
12	26000		1.32	234000	1.84		9	7	14000
13	28000	5	0.73	140000	1.10	4	5	4	8000
14	30000	10	1.46	300000	2.36	9	10	9	18000
15	32000	3	0.44	96000	0.76	FIRM		3	6000
16	34000	2	0.29	68000	0.54	FIRM		2	4000
17	36000	5	0.73	180000	1.42	FIRM		5	10000
18	38000	5	0.73	190000	1.50	FIRM	-	5	10000
10	10000			100000		TIPL (	5	1	2000
19	40000	10	1.46	400000	3.15	FIRM	10	10	20000
20	43000		0.50	1,50000	1.22	FIRM	10	2	4000
20	42000	4	0.58	168000	1.32	FIRM	- 4	4	8000
21	46000	4	0.50	184000	1.45	FIDM	4	1	2000
21	46000	4	0.58	184000	1.45	FIRM		4	8000
22 1	48000	2	0.20	06000	0.76		4	2	4000
22	48000	2	0.29	96000	0.76	FIRM	2	2	4000 2000
23	50000	3	0.44	150000	1.18	3	2	1	6000
23	50000	3	0.44	130000	1.18	3	3	3	2000
24	52000	2	0.29	104000	0.82	FIRM	3	1	
24	52000	2	0.29	104000	0.82	FIRM	2		4000 2000
25	54000	1	0.15	54000	0.43	FIRM		1	4000
25 26	56000	2	0.13	168000	1.32	FIRM		2	6000
20	30000	,	0.44	108000	1.32	2	3	2	4000
27	58000	2	0.29	116000	0.91	FIRM	3	2	4000
	38000	2	0.27	110000	0.21	1	2	1	2000
28	60000	4	0.58	240000	1.89	FIRM		4	8000
1	00000	,	0.50	240000	1.07	3	4	3	6000
29	62000	1	0.15	62000	0.49	FIRM		ĺ	4000
30	64000	i	0.15	64000	0,50	FIRM		i	4000
31	66000	i	0.15	66000	0.52	FIRM		1	4000
32	78000	i	0.15	78000	0.61	FIRM		i	4000
31 32 33	80000	2	0.29	160000	1.26	FIRM		2	8000
		_				1	2	Ī	2000
34	86000	1	0.15	86000	0.68	FIRM		1	6000
35	90000	2	0.29	180000	1.42	FIRM		2	8000
						1	2	1	2000
36	100000	3	0.44	300000	2.36	FIRM		3	18000
37	108000	2	0.29	216000	1.70	FIRM		2	12000
38	110000	3	0.44	330000	2.60	FIRM		3	18000
						1	3	1	2000
39	120000	1	0.15	120000	0.94	FIRM		1	8000
40	122000	1	0.15	122000	0.96	FIRM		1	8000
41	140000	1	0.15	140000	1.10	FIRM		1	8000
42	150000	2	0.29	300000	2.36	FIRM		2	16000
						1	2	1	2000
43	160000	2	0.29	320000	2.52 1.29	FIRM		2	20000
44	164000	1	0.15	164000	1.29	FIRM		1	10000
45	170000	!	0.15	170000	1.34	FIRM		1	10000
46	192000	1	0.15	192000	1.51	FIRM		1	12000
47	194000	2	0.29	388000	3.05	FIRM		2	24000
48	202000	!	0.15	202000	1.59	FIRM FIRM		<u> </u>	12000
49	240000	!	0.15	240000	1.89	FIRM		<u> </u>	14000
50	300000	ļ.	0.15	300000	2.36	FIRM		<u> </u>	18000
51	930000 CDAND TOTAL	1	0.15	930000	7.32	FIRM		247	56000
	GRAND TOTAL	684	100.00	12704000	100.00	L		247	770000

The Board of Directors of the company at its meeting held on March 06, 2023 has approved the Basis of Allotment of Equity shares as approved by the Designated stock Exchange viz. BSE Limited and at a meeting held on March 06, 2023 has authorized the corporate action for the transfer and allotment of the Equity Shares to various successful applicant

In terms of the Prospectus dated February 17, 2023 and as per the SEBI (ICDR) Regulations, 2018 wherein a minimum of 50% of the net offer of shares to the Public shall initially be made available for allotment to retail individual investors. The balance net offer of shares to the public shall be made available for allotment to a) individual applicants other than retail investors and b) other investors, including Corporate Bodies / Institutions irrespective of number of shares applied for. The unsubscribed portion of the net offer to any one of the categories specified in (a) or (b) shall be made available for allocation in the other category, if so required. "For the purpose of sub-regulation (2) of regulations 253, if the retail individual investor category is entitled to more than fifty per cent on proportionate basis, the retail individual investors shall be allocated that higher percentage".

The instructions to Self Certified Syndicate Banks for unblocking the amount has been processed on or prior to March 09, 2023. Further, the CAN-cum-Refund advices and allotment advice and/or notices will be forwarded to the address/email id of the Applicants as registered with the depositories as filled in the application form on or before March 10, 2023. In case the same is not received within 10 days, investors may contact at the address given below The Equity Shares allocated to successful applicants are being credited to their beneficiary accounts subject to validation of the account details with the depositories concerned. The Company is taking steps to get the Equity Shares admitted for trading on the BSE SME Platform within six working days from the date of the closure of the Issue.

Note: All capitalized terms used and not defined herein shall have the respective meanings assigned to them in the Prospectus dated February 17, 2023 ("Prospectus")

Investors are requested to note that the details of the allotment made would also be hosted on the website of the Registrar to the Issuer, http://cambridge.cameoindia.com/Module/IPO\_Status.aspx. All future corresp in this regard may kindly be addressed to the Registrar to the Issue quoting full name of the First/ Sole applicants, serial number of the Application Form, number of shares applied for and Bank Branch where the application had been lodged and payment details at the address of the Registrar given below:



Place: New Delhi, India

Date: March 09, 2023

"Subramanian Building", #1, Club House Road, Chennai - 600 002, India Telephone: +91-44-40020700, 28460390 Email: investor@cameoindia.com Website: www.cameoindia.com Contact Person: Ms. K. Sreepriya SEBI Registration Number: INR000003753 CIN: U67120TN1998PLC041613

For ITCONS E-SOLUTIONS LIMITED

Gaurav Mittal

Managing Director DIN: 01205129

DISCLAIMER CLAUSE OF BSE: IT IS TO BE DISTINCTLY UNDERSTOOD THAT THE PERMISSION GIVEN BY BSE LIMITED ("BSE") SHOULD NOT IN ANY WAY BE DEEMED OR CONSTRUED THAT THE CONTENTS OF THE PROSPECTUS OR THE PRICE AT WHICH THE EQUITY SHARES ARE OFFERED HAS BEEN CLEARED, SOLICITED OR APPROVED BY BSE, NOR DOES IT CERTIFY THE CORRECTNESS, ACCURACY OR COMPLETENESS OF ANY OF THE CONTENTS OF THE PROSPECTUS. THE INVESTORS ARE ADVISED TO REFER TO THE PROSPECTUS FOR THE FULL TEXT OF THE DISCLAIMER CLAUSE PERTAINING TO BSE.

THE LEVEL OF SUBSCRIPTION SHOULD NOT BE TAKEN TO BE INDICATIVE OF EITHER THE MARKET PRICE OF THE EQUITY SHARES ON LISTING OR THE BUSINESS PROSPECTS OF